

ACL:SEC:

August 22, 2022

BSE Limited,	National Stock Exchange of India Ltd., Plot No.C/1 'G' Block
Phiroz Jeejeebhoy Towers,	
Dalal Street, Mumbai – 400023	Bandra – Kurla Complex
	Bandra East, Mumbai 400051
Scrip Code :- 500425	Scrip Code:- AMBUJACEM
Deutsche Bank	Societe de la Bourse de Luxembourg,
Trust Company Americas	Avenue de la Porte Neuve
Winchester House	L-2011 Luxembourg,
1 Great Winchester Street	B.P 165
London EC2N 2DB,	
Email id :- ctas.documents@db.com	Email id :- ost@bourse.lu

Dear Sir,

Subject: Recommendations of the Committee of Independent Directors under Regulation 26(7) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011

Pursuant to Regulation 26(7) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, the written reasoned recommendations of the Independent Directors Committee (IDC) on the open offer made by **ENDEAVOUR TRADE AND INVESTMENT LTD** (the 'Acquirer) for acquisition of upto **51,63,52,655** Equity shares representing 26% of the voting equity share capital of the Company, has been published in the following newspapers on August 22, 2022:

- 1 Financial Express (all editions);
- 2 Jansatta (all editions);
- 3 Kesari (Junagadh edition); and
- 4 Navshakti (Mumbai edition)

Please find attached copy of recommendations of the IDC. The same is also available on the website of the company at <a href="https://www.ambujacement.com/investors/Adani-Group-Open-Offer">https://www.ambujacement.com/investors/Adani-Group-Open-Offer</a>.

This for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully, For AMBUJA CEMENTS LIMITED

RAJIV GANDHI COMPANY SECRETARY Membership No A11263

Keyiv n. Cranzni

SEMENTS ITO

**FINANCIAL EXPRESS** 

### Debt MFs see outflows; investors withdraw ₹70K cr in Q1

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, August 21

**INVESTORS CONTINUED TO** withdraw from mutual funds focused on investing in fixed-income securities for third consecutive quarter and pulled out over ₹70,000 crore in the April-June period due to high inflation and an increasing rate cycle.

"In the next (September) quarter, it is safe to assume that monetary conditions will be tighter in terms of lower amount system liquidity and higher regulatory rates, both of which should see further reduction in mutual fund debt corpuses," Sandeep Bagla, CEO Trust Mutual Fund, said.

Interest rate will be the major factor to dictate the flow in debt mutual funds in coming quarters. Once rates start stabilising, inflows can be expected, Ankit Yadav, wealth manager (USA) & director of Market Maestroo, said.

The latest outflow has pulled down the asset managed by fund managers for debt fixedincome funds by 5% to ₹12.35 trillion at June-end from close to ₹13 trillion at the end of March, Amfi data showed.

After hitting a peak of ₹14.16 trillion in the first quarter of fiscal 2022, assets under management for the fixed-income category has been on a steady decline and since then the asset base has fallen by 13%.

According to the data, net outflow from open-ended fixed-income mutual funds or debt mutual funds was at ₹70,213 crore during the quarter under review. Month-wise, the quarter

started on an optimistic note in April with the segment attracting ₹54,756 crore, however, this changed in May and June, as the category witnessed net outflows of ₹32,722 crore ₹92,247 respectively.

# Eligible depositors of 17 co-op banks to get payments in Oct

**GUARANTEED** 

■ Depositors will be

paid by credit to an

account specified by

depositors, or on their

consent, to Aadhaar-

Deposit insurance

commercial banks in

Girna Sahakari Bank, Saibaba

Janata Sahakari Bank, Anjan-

gaon Surji Nagari Sahakari

Bank, Jaiprakash Narayan

extended by the

DICGC covers all

all the states and

**Union Territories** 

alternate bank

linked account

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, August 21

THE DEPOSIT INSURANCE and Credit Guarantee Corporation (DICGC) will be making payments to eligible depositors of 17 cooperative banks, including eight from Maharashtra and four from Uttar Pradesh, in October. The Reserve Bank of India (RBI) had imposed several restrictions, including on withdrawals, by depositors of these 17 banks in Iulv in view of their deteriorating financial positions.

DICGC, a wholly owned subsidiary of the RBI, provides an insurance cover of up to ₹5 lakh on bank deposits.

Of the 17 cooperative banks, eight are in Maharashtra, four in Uttar Pradesh, two in Karnataka, and one each in New Delhi, Andhra Pradesh and West Bengal.

The cooperative banks from Maharashtra are: Sahebrao Deshmukh Co-operative Bank, Sangli Sahakari Bank, Raigad Sahakari Bank, Nashik Zilla

Nagari Sahakari Bank, and The Karmala Urban Co-op Bank. As per the DICGC, the banks

from Uttar Pradesh whose eligible depositors will be paid in October are: Lucknow Urban Co-op Bank, Urban Co-operative Bank (Sitapur), National Urban Co-op Bank (Bahraich), and United India Co-op Bank (Nagina).

The banks in Karnataka are: Sri Mallikarjuna Pattana Sahakari Bank Niyamita (Maski) and Shri Sharada Mahila Co-operative Bank (Tumkur).

Eligible depositors of Ramgarhia Co-operative Bank (New Delhi), Suri Friends Union Co-op Bank (Birbhum, Suri, West Bengal), and Durga Co-op Urban (Vijayawada, Andhra Pradesh) too will be paid by the DICGC in October.

The DICGC said the eligible depositors should support their claims by valid document/s of identity and written

Name of the Target Company (TC)

13. Disclosure of voting pattern of the

Details of Independent Advisors,

15. Any other matter to be highlighted

14.

(SAST) Regulations.

Date: August 19, 2022

Place: Goa

lying in credit of their deposit accounts subject to a maximum of ₹5 lakh, along with alternate bank account details into which the said amount will be credited. Depositors will be paid by credit to the alternate bank account specified by depositors, or on their consent, to their Aadhaar linked bank account.it said.

consent to receive the amount

insurance Deposit extended by the DICGC covers all commercial banks, including local area banks and regional rural banks as well as co-operative banks in all the states and UTs. The entity has been extend-

ing insurance cover to depositors with the objective of maintaining the confidence of small depositors in the banking system of the country and promoting financial stability.

The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (Amendment) Act, was passed by Parliament in 2021.

August 19, 2022

Ambuja Cements Limited

# FPIs pump ₹44,500 crore into equities in 3 weeks of August

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, August 21

**AFTER TURNING NET** buyers last month, foreign investors have shown great enthusiasm for Indian equities and have infused close to ₹44,500 crore in August so far amid softening of inflation in the US and falling dollar index. This was way higher than a net investment of nearly ₹5,000 crore by foreign portfolio investors (FPIs) in entire July, data with depositories showed.

FPIs had turned net buyers for the first time in July after nine straight months of massive outflows, which started in October last year. Between October 2021 till June 2022, they sold a massive ₹2.46 trillion in the equity markets.

In the coming months, FPI flows are to remain volatile. However, with the fading concerns of rising inflation, tightening of the monetary policy and performance of first quarterearnings, inflows are likely to



The near-term trend in capital flows will be influenced mainly by the movement of the dollar, VK Vijayakumar, chief investment strategist at Geojit Financial Services, said. According to data with

depositories, FPIs pumped in a net amount of ₹44,481 crore in **Indian equities during August** 1-19. This is the highest investment made by them so far in the current year.

Sentiments in the equity

market have turned bullish due to the sustained buying by FPIs. "The main trigger for the sustained buying has been the steady fall in the dollar index from above 109 in end-July to around 105 recently. But on August 19, the dollar index again moved up and crossed 107. If this trend continues cap-

Vijayakumar added. Kotak Securities' Chouhan attributed the positive inflow to mounting hopes that the global economy may avoid a major downturn amid softening inflation levels in the US.

ital inflows might be impacted,"

### NIVIDC Limited (A Government of India Enterprise) 'Khanij Bhavan', 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad -500028 Corporate Identity Number (CIN) - L13100TG1958GOI001674 CONTRACTS DEPARTMENT

E-Tender Notice (Open Tender Enquiry for Domestic Bidding) Tender Enquiry No: HO (Contracts)/Construction/Toe Wall & Garland Drain/DNM/2022/856, dated 22.08.2022 [MSTC Ref. No.: NMDC/HO/47/22-23/ET/332]

NMDC Limited, A "NAVARATNA" Public Sector Company under Ministry of Steel, Govt, of India, invites online bids from experienced domestic bidders for the work of 'Construction of Toe wall and Garland Drain for TW-MP 1A and GD-MP-1A of back filling at MP-1A of DIOM'.

The detailed NITs and Bid documents can be viewed and /or downloaded from 22-08-2022 to 14-09-2022 from following website links; 1. NMDC website - http://tenders.nmdc.co.in/nmdctender

2. Central Public Procurement portal - http://www.eprocure.gov.in/epublish/

3. MSTC portal - https://www.mstcecommerce.com/eprochome/nmdc/

For accessing the bid document from MSTC portal, bidder has to register as 'New Vendor' at MSTC website link https://www.mstcecommerce.co.in/ eprochome/nmdc/buyer\_login.jsp and search Tender Event No. NMDC/ HO/47/22-23/ET/332. For further help refer to 'vendor guide'given in MSTC website. The bidders are requested to submit their bids online through MSTC Limited e-procurement website.

For further clarification, the following can be contacted: Chief General Manager (Contracts), NMDC Limited, Hyderabad, Fax No. 040-23534746, Tel No. 040- 23532800, email: contracts@nmdc.co.in

> For and on behalf of NMDC Ltd **Chief General Manager (Contracts)**

Face value NAV per unit Distribution

Investment Manager: Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC) Corporate Identity Number (CIN): U65991MH2003PTC142972

Registered Office: Crescenzo, 7th Floor, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra - East, Mumbai - 400 051.

Website: www.barodabnpparibasmf.in • Toll Free: 18002670189

### NOTICE NO. 63/2022

Declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) under the designated Schemes of Baroda BNP Paribas Mutual Fund (the Fund):

Notice is hereby given that the Trustees of the Fund have approved distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Options of the following Schemes at the stated rate per unit subject to available distributable surplus and fixed Saturday, August 27, 2022^ as the Record Date:

Name of the Scheme	Name of Plans/Options	per unit (in ₹)	as on August 19, 2022	per unit#* (in ₹)
Baroda BNP Paribas	Regular Plan - IDCW Option	10	14.4181	0.07
Aggressive Hybrid Fund	Direct Plan - IDCW Option	10	15.6863	0.08
Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund	Regular Plan - IDCW Option	10	41.0610	0.21
	Direct Plan - IDCW Option	10	42.2883	0.22
Baroda BNP Paribas	Defunct Plan - Monthly IDCW Option	10	10.4171	0.03
Low Duration Fund	Regular Plan - Monthly IDCW Option	10	10.2433	0.03
Baroda BNP Paribas Dynamic Bond Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	10	10.2218	0.04
Baroda BNP Paribas Corporate Bond Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	10	10.1316	0.04
Baroda BNP Paribas	Regular Plan - Monthly IDCW Option	10	10.7118	0.05
onservative Hybrid Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	10	12.3960	0.05
Paroda BNP Paribas  Medium Duration  Fund (scheme has one begregated portfolio)	Regular Plan - Monthly IDCW Option	10	10.0836	0.04
	Direct Plan - Monthly IDCW Option	10	10.4239	0.04
Baroda BNP Paribas Credit Risk Fund (scheme has one segregated portfolio)	Regular Plan - Monthly IDCW Option	10	11.3005	0.05
Baroda BNP Paribas	Regular Plan - Monthly IDCW Option	10	10.0604	0.04
Short Duration Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	10	10.0935	0.04
Baroda BNP Paribas Money Market Fund	Regular Plan - Monthly IDCW Option	1000	1007.0091	3.10
Baroda BNP Paribas Banking and PSU Bond	Regular Plan - Monthly IDCW Option	10	10.1280	0.04
Fund	Direct Plan - Monthly IDCW Option	10	10.1296	0.04

# The distribution will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower, depending on the distributable surplus available on the Record Date.

\*Net distribution amount will be paid to the unit holders under respective categories after deducting applicable

For the units held in physical form, amount of distribution will be paid to all unit holders whose names appear in the records of the Registrar at the close of business hours on the record date and for units held in demat form, the names appearing in the beneficial owners master with the Depository as on the record date shall be considered.

Pursuant to distribution under IDCW, NAV of the IDCW option of the scheme(s) would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

For Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (Formerly BNP Paribas Asset Management India Private Limited) (Investment Manager to Baroda BNP Paribas Mutual Fund)

Authorised Signatory

Place: Mumbai

Date : August 21, 2022

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS. READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

# Ambuja Cement

### AMBUJA CEMENTS LIMITED

CIN: L26942GJ1981PLC004717

Regd. Office: P. O. Ambujanagar, Taluka: Khodinar, District: Gir Somnath, Gujarat-362 715

Corporate Office: Elegant Business Park, MIDC Cross Road "B", Off Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059 Tel No.: 022-4066 7000 • Website: www.ambujacement.com • E-mail: investors.relation@ambujacement.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Ambuja Cements Limited ("Target Company") under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations") on the Open Offer (as defined below) made by Endeavour Trade and Investment Limited ("Acquirer") to the public shareholders of the Target Company.

3	Details of the Offer pertaining to the TC		Open offer for the acquisition of up to 51,63,52,655 (Fifty One Crore Sixty Three Lakh Fifty Two Thousand Six Hundred and Fifty Five) fully paid-up equity shares of the Target Company having a face value of INR 2 (Indian Rupees Two Only) each ("Equity Shares") representing 26% of the total voting equity share capital of the Target Company on a fully diluted basis (as of the 10th working day from the closure of the tendering period of the Open Offer) of the Target Company (including outstanding warrants and rights shares kept in abeyance exercisable into 1,86,690 and 1,39,830 Equity Shares) at a price of Rs. 385 (Indian Rupees Three Hundred and Eighty Five only) per Equity Share ("Offer Price") from the public shareholders of the Target Company ("Open Offer").  The public announcement dated May 15, 2022 ("PA"), the detailed public statement published on May 23, 2022 ("DPS"), the draft letter of offer dated May 25, 2022 ("DLOF") and the letter of offer dated August 19, 2022 ("LOF") have been jointly issued by ICICI Securities Limited and Deutsche Equities India Private Limited on behalf of the Acquirer.		
4	1.	Name(s) of the Acquirer and PAC with the Acquirer	Acquirer: Endeavour Trade and Investment Limited There are no persons acting in concert with the Acquirer for the purposes of the Open Offer.		
		Name of the Manager to the Open Offer	ICICI Securities Limited and Deutsche Equities India Private Limited are the joint managers to the Open Offer.  ICICI Securities Limited, ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025, Maharashtra, India   Contact person: Sameer Purohit/Gaurav Mittal  Tel.: +91 22 6807 7100, Fax: +91 22 6807 7801, E-mail: acl.openoffer@icicisecurities.com, Website: www.icicisecurities.com, SEBI registration no.: INM000011179  Deutsche Equities India Private Limited, 14th Floor, The Capital, C-70, G Block, Bandra Kurla Complex Mumbai, Maharashtra – 400051   Contact person: Soumyajit Sengupta/ Prathmesh Sonawane, Tel.: +91 22 6670 5008, Fax: +91 22 7180 4199, E-mail: ambuja.openoffer@db.com, Website: www.deutschebank.co.in, SEBI registration no.: INM000010833		
6	6. Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)  7. IDC Member's relationship with the TC (Director, equity shares owned, any other contract/ relationship), if any		Independent Directors (Please b. Mr. Rajendra Chitale (Member)  indicate the chairperson of the c. Mr. Shailesh Haribhakti (Member)		b. Mr. Rajendra Chitale (Member) c. Mr. Shailesh Haribhakti (Member) d. Mr. Omkar Goswami (Member)
7			Each of the members of the IDC are independent directors on the board of directors of the Target Company.  a. Mr. Rajendra Chitale, Independent Director and a member of the IDC holds 4945 equity shares of the Target Company.  b. None of the other members of the IDC hold any equity shares or other securities of the Target Company;  c. None of the members of the IDC have any other contracts or relationship with the Target Company.		
8	3.	Trading in the equity shares/ other securities of the TC by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in any of the equity shares/securities of the Target Company during the: (a) 12 months period preceding the date of the PA; and (b) period from the date of the PA till the date of this recommendation.		
S	Э.	IDC Member's relationship with the Acquirer (Director, equity shares, owned, any other contract/ relationship), if any	None of the members of the IDC:  a. are directors on the board of the Acquirer;  b. hold any equity shares or other securities of the Acquirer; or  c. have any contracts/ relationship with the Acquirer.		
1	10.	Trading in the equity shares / other securities of the Acquirer by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in any of the equity shares/securities of the Acquirer.		
	11.	Recommendation on the Open Offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The IDC has reviewed the PA, the DPS, and the LOF.  Edelweiss Financial Services Limited, SEBI registered, Category I Merchant Banker, appointed by the IDC to provide its independent opinion with respect to the Offer Price, has: (i) opined that the Offer Price offered by the Acquirer (being the highest price prescribed) is in accordance with the Regulation 8(2) of the SEBI SAST Regulations and (ii) provided its opinion on the fair price per equity share of the Target Company, and opined that the Offer Price is fair and reasonable.  Based on the above, the IDC is of the opinion that, as on the date of this recommendation, the Offer Price of Rs. 385 (Indian Rupees Three Hundred and Eighty Five only) per Equity Share offered by the Acquirer is: (a) in accordance with the regulation prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and (b) the Open Offer appears to be fair and reasonable.  However, IDC would like to draw attention of the shareholders that post the Public Announcement dated May 15, 2022, the share price of the Company has increased, and the current share price is higher than the Offer Price.  The shareholders are advised to independently evaluate the open offer and take an informed decision, whether or not to tender their equity shares in the open offer.		
12.		Summary of reasons for recommendations (IDC may also invite attention to any other place, e.g. company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent adviser, if any can be seen by the shareholder)	The IDC has reviewed the PA, the DPS, and the LOF.  Edelweiss Financial Services Limited, SEBI registered, Category I Merchant Banker, appointed by the IDC to provide its independent opinion, has confirmed that Offer Price of Rs. 385 (Indian Rupees Three Hundred and Eighty Five only) per Equity Share is in accordance with the Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations.  Edelweiss Financial Services Limited have also provided its opinion on the fair price per equity share of the Target Company to the IDC at its meeting held on August 19, 2022 and opined that the Offer Price of Rs. 385 (Indian Rupees Three Hundred and Eighty Five only) per Equity Share is fair and reasonable.  Based on the above, IDC is of the opinion that the Offer Price of Rs. 385 (Indian Rupees Three Hundred and Eighty Five only) per Equity Share is in compliance with the SEBI (SAST) Regulations and the Open Offer appears to be fair and reasonable.  However, IDC would like to draw attention of the shareholders that post the Public Announcement dated May 15, 2022, the share price of the Company has increased, and the current share price is higher than the Offer Price.  The shareholders are advised to independently evaluate the open offer and take an informed decision, whether or not to tender their equity shares in the open offer.		

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI

New Delhi

independent opinion with respect to the Offer Price.

Statement of recommendation will be available on the website of the Target Company at https://www.ambujacement.com/investors

Edelweiss Financial Services Limited, SEBI registered, Category I Merchant Banker, was appointed by the IDC to provide its

The recommendations were unanimously approved by the members of the IDC present at the meeting held on August 19, 2022

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of Ambuja Cements Limited

Mr. Nasser Munjee

Chairperson, Committee of Independent Directors

financialexp.epap.in







कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद

नगरपरिषद दुबे रुग्णालय इमारत, पहिला मजला, आदर्श विद्यामंदिर रोड, बदलापूर रेल्वे स्टेशन, (पूर्व), कुळगांव, पिन-४२१ ५०३. जि. ठाणे. ई-मेल :- coud.kulgaonbadalapur@maharashtra.gov.in वेबसाईट :- https://kbmc.gov.in

संदर्भ – कुबनप/साबां/४५/२०२२–२३

दिनांक: १८/०८/२०२२

#### जाहीर निविदा सूचना ७७/२०२२-२३

कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद, जिल्हा ठाणे यांजकडून खालील ५ कामांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील नोंदणीकत कंत्राटदाराकडन टक्केवारी दराच्या सिलबंद निविदा मागवित आहे

अ. क्र.	कामाचे नाव	कामाची अंदाजित रक्कम रु.	इसारा रक्कम रु.	ई-निविदा फॉर्म फी (वस्तु व सेवा करासह) रु.	कामाचा कालावधी
8	कुबनप क्षेत्रातील वॉ.ऋ. २१ मध्ये सुरेश शेख व कब्रस्तान भागात रस्ता व गटार बनविणे.	९,९९,८६२/-	१०,०००/-	५९०/-	१०० दिवस
?	कुबनप क्षेत्रातील वॉ.क्र. १३ मध्ये स्नेहप्रसाद सोसायटी येथे मोकळ्या जागेत पायवाट व पेव्हर ब्लॉक लावणे.	९,९७,१९७/-	१०,०००/-	५९०/-	१०० दिवस
ş	कुबनप बदलापूर नगरपरिषद क्षेत्रातील वॉ.क्र. १३ मधील हरिश्चंद्र आर्केड येथे नवीन गटार बनवणे त्यावर स्लॅब टाकणे.	९,९७,९७४/-	१०,०००/-	५९०/-	१०० दिवस
γ	कुबनप क्षेत्रातील वॉ.क्र. २१ मध्ये अंतर्गत भागात पायवाटा बनविणे.	९,९७,०००/-	१०,०००/-	५९०/-	१०० दिवस
ц	कुबनप क्षेत्रातील वॉ.क्र. २१ मध्ये अंतर्गत भागात मिनी हायमास्ट बनविणे.	९,९७,४४२/-	१०,०००/-	५९०/-	१०० दिवस

सदर निविदेबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे देण्यात येत आहे.

- निविदा संच विक्री ठिकाण बांधकाम विभाग (निविदा विक्री व इसारा रक्कम) दिनांक २२ /०८/२०२२ ते दिनांक ३०/०८/२०२२ (सुट्टीचा दिवस वगळून).
- निविदा धारकांनी निविदा सादर करण्याचा अंतिम दिनांक १/०९/२०२२.
- मा. मुख्याधिकारी, कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद यांचे कार्यालयात दिनांक १/०९/२०२२ रोजी दुपारी ४.००वाजेपर्यंत शक्य झाल्यास निविदा उघडण्यात येतील.

निविदा फॉर्म प्राप्त करण्याच्या व भरण्याच्या अटी व शर्ती खाली नमुद केल्याप्रमाणे राहतील.

- सार्वजनिक बांधकाम विभाग अथवा अन्य सक्षम खात्याचे नोंदणी प्रमाणपत्र.
- आयकर, GST तसेच कामगार भविष्य निर्वाह निधी नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत.
- वरील प्रमाणे कामे केलेल्याचा दाखला/प्रमाणपत्र.
- कामाचा अनभव प्रमाण पत्र
- ठेकेदाराची निविदा कामाच्या प्राकलन किमंतीपेक्षा कमी दरांची असेल तर महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विनागाच्या दि.१२/०२/२०१६ शासन निर्णयानुसार कामाकरिता वाढीव परफॉर्मन्स सिक्युरीटी म्हणून धनाकर्ष (Demand Draft) मुख्याधिकारी, कुबनप यांच्या नावे भरणे बंधनकारक राहील.
- वर नमुद केलेल्या कामांची साईट पाहणी करून निविदा भरावी व करारनाम्यातील सर्व अटी शर्तींचे व नगरपालिका नियम व अधिनियम यांचे पालन करणे निविदाधारकावर बंधनकारक राहील.
- उपरोक्त कामांकरिता निविदा सादर करताना सर्व (GST, इतर) करासहित निविदा भरावी.
- महाराष्ट्र शासनाच्या, बांधकाम विभागाच्या, शासन निर्णय क्र. सीएटी/२०१८/प्र.क्र. १२७ /इमा-२ दि. १२/०४/२०१८ अन्वये मंजूर निविदा धारकाने नगरपरिषदेने पुरविलेल्या नमुन्यात रक्कम रु. ५००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर सत्य प्रतिज्ञा पत्र (Affidavit) देणे बंधनकारक आहे.
- स्थायी निर्देश क्र. ३६ मधील निदेशानुसार रक्कम रु. १००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर निविदेमध्ये सदस्यांच्या सहभाग नसल्या बाबतचे प्रतिज्ञा पत्र देणे बंधनकारक आहे.
- १०. महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रक क्रमांक ३(२)/निविदा/५८८०/२०१८ दि. ०९/०७/२०१८ अन्वये एका कंत्राटदारास एक निविदा सुचनेतील तीन पेक्षा जास्त कामे मिळाल्यास त्याची चौथ्या कामाकरिता असलेली निविदाचे काम देण्यात येणार नाही
- ११. एका निविदेमध्ये सहभाग घेतल्यानंतर निविदेच्या कोणत्याही स्तरावर निविदाकारास माघार घेता येणार नाही, तसे आढळल्यास महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्र. सीएटी-२०१७/प्र.क्र.८/इमा-२/दि. २९/०१/२०१९ नुसार सदर निविदा धारकाची बयाणा रक्कम जप्त करुन संबंधित प्रादेशिक विभागातील सर्व निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यास अपात्र ठरविण्यात येईल.
- १२. प्राप्त निविदांपैकी कोणतीही एक निविदा स्विकारण्याचा अथवा कोणत्याही कारणाशिवाय सर्व निविदा नाकारण्याचा अधिकार निम्नस्वाक्षरीकार यांनी राख्न ठेवला आहे.
- १३. याकामी महाराष्ट्र शासानचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१५१/इमारती - दिनांक १४ जानेवारी २०१९ नुसार दोष दायित्व कालावधी लागू राहील.

मुख्याधिकारी

कुळगांव-बदलापूर नगरपरिषद



#### **DNS BANK** डोंबिवली नागरी सहकारी बँक लि.

मल्टी-स्टेट शेड्यल्ड बँक वसुली विभाग : एव्हरेस्ट ॲनेक्स, द्वारका हॉटेलच्या वर, डोबिवली रेल्वे स्टेशनजवळ, डोबिवली (प.)- ४२१ २०२.

#### जाहीर लिलाव नोटीस

<mark>कर्जदार श्री. बिनयकुमार बुधसेन यादव, प्रोप्रा. मेसर्स. ओमकार सर्लीसेस</mark> यांना देण्यात आलेली **दिनांक १२.०४.२०२१** रोजीची अग्रीम रक्कम रु. ६४,६९,५७७.५० (रुपये चौसष्ठ लाख एकोणसत्तर हजार पाचशे सतरा आणि पन्नास पैसे मात्र) वरील कंत्राटी दराने व्याज आणि शुल्क, प्रभार आणि थकीत कर्ज वसुलीपर्यंतचे सर्व खर्च इत्यादीच्या वसुलीकरिता **डोंबिवली नागरी सहकारी बँक लिमिटेड (बँक)** यांच्याकडे ्र गहाण असलेली खाली नमुद केलेली (तारण मालमत्तांचा) **सिक्युरिटायझेशन आणि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल असेट्स ऑण्ड** एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ (सरफैसी ॲक्ट) आणि त्याअंतर्गत बनविलेल्या नियमान्वये जाहीर लिलावाद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे. बँकेकडे खाली नमूद तारण मालमत्तांचा **प्रत्यक्ष ताबा** आहे. बँकेने तिच्या देय रकमेच्या वसूलीसाठी खालील मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे

मिळकतीचे वर्णन	राखीव किंमत	इ.अ.र	निरीक्षणाची	लिलावाची तारीख
ामळकताच वणन	(रु. लाखांमध्ये)	(रु. लाखात)	तारीख आणि वेळ	आणि वेळ
9. फ्लंट क्र.सी-०२, स्टील्ट फ्लोअर, इमारत क्र. सी, साई श्रध्दा पार्क, गट क्र. २२, वडगाव (कोल्हाटी), वाळुंज महानगर, सिडको, औरंगाबाद, सुपर बिल्टअप क्षेत्र ७०.१३ चौ.मी. म्हणजेच ६१.५७ चौ.मी. बिल्टअप	30 / 9	રૂ.५૮	०८.०९.२०२२ स. १०.०० ते दु.३.०० वाजता	स. ११.०० वाजता २८.०९.२०२२
२. सब प्लॉट क्र.२७, एमआयडीसी प्लॉट क्र. आरएच-१०७, गाव वडगाव, एमआयडीसी, वाळुंज इंडस्ट्रीयल एरिया, औरंगाबाद, जागेचे एकुण ९९८.०० चौ.फूट बिल्टअप क्षेत्र म्हणजेच ९२१.१६ चौ.फूट.	Un Us	४.०५	०८.०९.२०२२ स. १०.०० ते दु.३.०० वाजता	दु. १.०० वाजता २८.०९.२०२२

वरील दोन्ही मालमत्तेचा लिलाव प्लॉट क्रमांक १२२. तळमजला. समर्थ नगर. वरद गणेश मंदिर पथ औरंगाबाद-४३१००१ येथे असलेल्या बॅंकेच्या औरंगाबाद शाखेत केला जाईल.

#### अटी आणि शर्ती :

- १. विक्रीचे बोली अर्ज, अटी आणि शर्तींसह बॅंकेच्या औरंगाबाद शाखेत जे प्लॉट क्र.१२२, तळमजला, समर्थनगर, वरद गणेश मंदीर पथ औरंगाबाद - ४३१ ००१ येथे किंवा वसली विभाग एव्हरेस्ट ॲनेक्स, द्वारका हॉटेलच्या वर, डॉबिवली रेल्वे स्टेशनजवळ, डॉबिवली (पश्चिम) जि. ठाणे - ४२१२०२ या बॅंकेच्या पत्यावरून कामकाजाच्या कोणत्याही दिवशी **सकाळी १०.००** आणि **सायं. ४.००** या वेळेत **रु. १,०००**/ (विना परतावा) प्रत्येक मालमत्तेसाठी रक्कम भरणा करून प्राप्त करता येतील.
- . बोलीदाराने लिलावाच्या प्रक्रियेमध्ये स्वतः भाग घेणे आवश्यक आहे आणि बोली मोहोरबंद पाकिटामध्ये उपरोल्लेखित अनामत रक्कम **आरटीजीएस** किंवा कोणत्याही राष्ट्रीयकृत किंवा शेड्युल्ड बँकेच्या **मुंबई** येथे देय असलेल्या **डॉबिवली नागरी सहकारी बँक लिमिटेड** च्या नावे पे ऑर्डर / डिमांड ड्राफ्ट सह दि. २७.०९.२०२२ रोजी **सायं. ४.०**० वा.पर्यंत किंवा त्यापूर्वी प्राधिकृत अधिकारी, **डोंबिवली नागरी सहकारी** बॅंक लिमिटेड, औरंगाबाद शाखा येथे पोहोचणे आवश्यक आहे. अनामत रक्कमेशिवाय / किंवा राखीव किमतीपेक्षा कमी असलेल्या बोली स्वीकारल्या जाणार नाहीत. बोलींचे मोहरबंद लिफाफे लिलावाच्या वेळी आणि ठिकाणी उघडण्यात येतील. आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारे र्डाग्मडी खालील खात्यामध्ये पाठविण्यात यावेत त्यांचा तपशील खालीलप्रमाणे :-

- डोंबिवली नागरी सहकारी बँक लि.. खात्याचे नाव

- ॲक्सिस बँक लि., बँकेचे नाव - डोंबिवली पूर्व

आयएफएससी कोड - UTIB0000125 खाते क्रमांक - 125010200011149

- . बोलीदाराने एक पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि पॅनकार्ड, निवासाचा पुरावा यांसारख्या केवायसी कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती अर्जासोबत जमा कराव्यात व लिलावाच्या दिवशी मूळ प्रती पडताळण्यासाठी आणाव्या
- बोळीदारांनी वैयक्तिकरित्या लिळावात भाग घेतला पाहिजे, तथापि, जर बोळीदारांने कोणत्याही व्यक्तीस त्याच्या/तिच्या/तिच्या वतीने भाग घेण्यास अधिकृत केले असेल, तर अशा अधिकृत व्यक्तीने त्याच्या/तिच्या/तिच्या बाजूने बोलीदाराने जारी केलेले अधिकार पत्र/बोर्ड ठराव सादर
- मालमत्तेची विक्री काटेकोरपणे **"जशी आहे जेथे आहे" तत्वावर आणि "जशी आहे जी आहे"** तत्त्वावर करण्यात येईल आणि इच्छक बोलीदारांनी मालमत्तांविरुद्ध असलेले दावे, देय प्रभार, कर, देणी आणि / किंवा इतर कोणतीही दायित्वे जर असल्यास त्याबाबतची चौकशी स्वतः करावी आणि जर अशी काही दायित्वे असल्यास त्याची जबाबदारी बोलीदाराने स्वीकारावयाची आहे. मालमत्तांवर असलेल्या अशा दायित्वांबाबत बँकेस काहीही माहिती नाही.
- लिलाव प्रक्रियेमध्ये प्राधिकृत अधिकाऱ्याने प्राप्त केलेल्या उच्चतम बोली रकमेपासून बोली पुढे सुरू होईल. आणि त्यानंतर बोलीदारांना त्यांची बोली कमीत कमी **रु. ५०,०००/- (रु. पन्नास हजार फक्त) प्रत्येक मालमत्तेसाठी** या पटीमध्ये वाढविण्याची अनुमती देण्यात येईल.
- यशस्वी बोलीदारांस ठरलेल्या खरेदी रकमेच्या **२५**% रक्कम (अगोदर भरलेली अनामत रक्कम समाविष्ठ) त्यांची बोली स्वीकारण्यात आल्यानंतर लगेचच म्हणजे त्याच दिवशी किंवा पुढील कामकाजाच्या दिवशी संध्याकाळी ५.०० वा. पर्यत भरावी लागेल आणि उर्वरित रक्कम लिलावाच्या दिवसापासून १५ दिवसांच्या आत भरावी लागेल.

जर यशस्वी बोलीदार कलम (७) मध्ये नमूद केल्यानुसार बोली रकमेच्या २५% रक्कम भरणा करण्यास अयशस्वी ठरला, तर त्याने जमा

- केलेली अनामत रक्कम जप्त केली जाईल आणि विक्री प्रक्रिया रद्द झाली असे समजण्यात येईल. तसेच जर बोलीदार उर्वरित शिल्लक ७५% रक्कम लिलावाच्या दिवसापासून १५ दिवसांच्या आत भरणा करू न शकल्यास त्याने भरलेली२५% रक्कम जप्त केली जाईल. उपरोक्त कलम ७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संपूर्ण बोलीची रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर, प्राधिकृत अधिकारी यशस्वी बोलीदाराच्या नावे विक्री
- प्रमाणपत्र कार्यान्वित करेल आणि यशस्वी बोलीदार सर्व कर, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क आणि विक्री प्रमाणपत्र नोंदणीकृत करण्यासाठी प्रासंगिक खर्च यशस्वी बोलीदाराने भरणा करणे आवश्यक आहे.
- 🕫 प्राधिकृत अधिकारी विहित वेळेत संपूर्ण बोलीची रक्कम मिळाल्यावरच विषय मालमत्तेचा ताबा देईल.
- ११. प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना कोणतेही कारण न देता आणि पूर्वसूचनेशिवाय लिलाव रद्द करणे / पुढे ढकलणे अथवा कोणतीही बोली स्वीकारणे वा नाकारण्याचा आणि विक्रीच्या अटी आणि शर्तींमध्ये सुधारणा / बदल करण्याचे सर्वाधिकार राहतील.
- २.लिलावाबाबतच्या माहितीसाठी **डॉबिवली नागरी सहकारी बँक लिमिटेडचे** प्राधिकृत अधिकारी **मोबाईल क्र. ९८७०९९५६२१** वर संपर्क साधता

#### सरफेसी कायदा, २००२ अंतर्गत वैधानिक ३० दिवसांची विक्री सूचना

कर्जदार/जामिनदार / गहाणवटदार आणि त्यासंबधित इतर पार्टी यांना सरफैसी ॲक्ट अधिनियमाच्या कलम १३ मधील उपकलम ८ याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, लिलाव विक्रीच्या तारखेपूर्वी बँकेची थकबाकी परतफेड करण्यासाठी कसुरवार ठरल्यास वरील तारीख आणि वेळी मिळकतीचा लिलाव करण्यात येईल आणि उर्वरीत काही शिल्लक राहिल्यास व्याज व खर्चासह वसुल करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. ठिकाण : डोंबिवली

दिनांक : २२.०८.२०२२. प्राधिकत अधिकारी डोंबिवली नागरी सहकारी बँक लि.

\* उपरोल्लेखित मराठी मजकुरामध्ये काही संदिग्धता असल्यास / आढळल्यास इंग्रजी मजकूर ग्राह्य मानावा.

FICICI Bank

शाखा कार्यालय: आयसीआयसीआय बँक लिमिटेड, तळ मजला, आक्रुती सेंटर, एमआयडीसी, टेलिफोन एक्सचेंज जवळ आक्रुती स्टारच्या समोर, अंधेरी पूर्व, मुंबई- ४०००९३

जाहीर सूचना – तारण मत्तेच्या विक्रीसाठी निविदा ई– । (नियम ८(६) चे तरतुदीकडे पहा)

स्थावर मिळकतीच्या विक्रीकरिता सूचना सिक्युरीटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल असेट्स अँड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट कायदा २००२ सह नियम ८(६) च्या तरतुदीनुसार स्थावर मालमत्तेचा ई-

लिलाव विक्री सूचना. सर्वसामन्य लोक आणि विशेषतः कर्जदार आणि जामीनदार यांना सूचना देण्यात येत आहे की खाली वर्णन केलेली स्थावर मालमत्ता जी सिक्युअर्ड क्रेडीटर यांच्याकडे गहाण/ चार्ज्ड करण्यात आली असुन, त्याचा साकेतिक ताबा आयसीआयसीआय बँक लि.चे अधिकारी यांनी घेतला असून ती ''जसे आहे जिथे आहे'' ''जे आहे ते आहे '', ज णि ''तेथे जे असेल ते '' या आधारे होणार आहे, त्याचे तपशील खाली देण्यात आले आहेत.

अ. क्र.	कर्जदाराचे / कर्जदाराचे / हमीरदाराचे नाव / कर्ज खाते क्रमांक	काही असल्यास ज्ञात बोजासह तारण मत्तेचा तपशील	थकबाकी रक्कम ₹	आरक्षित मूल्य (₹) इसारा अनामत ठेव रैं	मालमत्तेच्या परीक्षणची तारीख आणि वेळ	ई–लिलाव तारीख आणि वेळ
1.	(बी)  मे. पी.जी. ज्वेलर्स (कर्जदाराचे), श्री प्रविणवंद्र गिरधरलाल धोरडा आणि श्रीमती रमा प्रविणवंद्र धोरडा (गहाण/ हमीदार), श्री निर्मल प्रविणवंद्र धोरडा, श्रीमती स्वेता देवांग धोरडा	(सी)  फ्लॅट क्र. १९२, एरिया ७९५ चौ. फूट सुपर बिल्ट अप आणि फ्लॅट क्र. १९४, ' एरिया ८५५ चौ. फूट. सुपर बिल्ट अप, १९व्या मजल्यावर, शांतीवन इमारतीच्या ए विंग, सर्व्हे क्र. २०६ आणि २०७ आणि	(डी) कर्ज खाते क्रमांक ०२६१०५००९१८३ ₹ ४,९४,३३,९२९.२८ (दि. जुलै ३१, २०२२ पर्यंत) कर्ज खाते क्रमांक	(ई) ₹ ३,६३,००, ०००/-	(एफ) सप्टेंबर १२, २०२२ सकाळी ११:०० ते दुपारी ०२:००	(जी) सप्टेंबर २८,२०२२ सकाळी ११:००
2172	आणि श्री देवांग प्रविणचंद्र धोरडा (जामीनदार)/ कर्ज खाते क्रमांक ०२६१०५००९१८३ आणि ०२६१५५००००८७	संबंधित सीटीएस क्रमांक १४४८/१ (pt), १४४८/2 (pt), देविदास रोड, लॉरेन्स शाळेच्या पुढे, एकसर रोड, बोरिवली पश्चिम, मुंबई ४०००९२.	०२६१५५००००८७ ₹ ८७,७९,२०९ (दि. जुलै ३१,२०२२ पर्यंत)    सोल्यशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड. या ई-लिलाव एजन	₹ € , ₹ ° , ° ° ° / -	पर्यंत	पासून

तारणदार नोटीसी यांना **दि. सप्टेंबर २७. २०२२ रोजी संध्याकाळी ५.००** वाजणेपुर्वी एकुण धकबाकी आणि पुढील व्याजासह रक्कम परतफेड करण्याची संधी देण्यात येत आहे. अन्यथा सदर तारण

मालमत्तावरील परिशिष्टाप्रमाणी विक्री करण्यात येईल. संभाव्य बोलीदारांनी बयाणा रक्कम (ईएमडी) **आयसीआयसीआय बँक लिमिटेड, लेवल ३-५, ७४ टेक्नो पार्क, सीप्झ गेट क्रमांक ०२ समोर, मरोल एमआयडीसी, अंधेरी पूर्व, मुंबई ४०००९३ यांचेकडे डीमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉल्म ई पहा) दि. <b>सप्टेंबर २७, २०२२** रोजी दु. ०४.०० वाजणेपूर्वी सादर करावी आणि त्यानंतर त्यांनी त्यांचा प्रस्ताव फत्त वर नमूद वेबसाईटमार्फत दि. **सप्टेंबर २७, २०२२** रोजी **संघ्याकाळी ५.००** वाजणेपूर्वी ईएमडीच्या पैसे मरल्याच्या पुराव्यासाठी बँक पोचसह – डीडीची स्कॅन केलेल्या ईमेजसह सादर करणे आवश्यक आहे. कृपया् नोंद् घ्यावी, जूर संभाव्य बोलीदारांना वेब्साईटमार्फत त्यांचे प्रस्ताव सादर करणे शक्य नसल्यास, स्वाक्षरीकृत् निविदा दस्तावेजाची प्रत **आयसीआयसीआय बँक लिमिटेड, लेवल** ३-५, ७४ <mark>टेक्नो पार्क, सीप्झ गेट क्रमांक ०२ समोर, मरोल एमआयडीसी, अंधेरी पूर्व, मुंबई ४०००९३</mark> येथे दि. सप्टेंबर २७, २०२२ रोजी **संघ्याकाळी ५.००** वाजणेपूर्वी सादर करत येतील. बयाणा रक्कम राष्ट्रीयकृत/वर्गीकृत बँकेकडील डीडी/पीओ ''**आयसीआयसीआय बंक लिमिटेड** यांच्या नावे **मुंबई** येथे देय सादर करावा.

पाहणीसंबंधित, ई–लिलावाच्या शर्ती व अटी किंवा निविदा सादर करण्याशी संबंधित कोणत्याही खुलाशाकरिता कृपया संपर्क आयसीआयसीआय बँक लिमिटेडला **८२९१९५८७६५** क

कृपया नोंद घ्यावी की मार्केटिंग एजन्सी **१. मेसर्स नेक्सझेन सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड २. ऑजीओ ॲसेट मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड ३. मॅटेक्स नेट प्रायव्हेट लिमिटेड** . सदर मालमत्तेच्या विक्री सुविधेसाठी नेमण्यात आले आहे

कोणतेही कारण न देता कोणतीही किंवा सर्व बोली स्विकारणे किंवा नाकारणेचा अधिकार प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडे राखीव आहे. विक्रीच्या विस्तृत शर्ती व अटींकरिता कृपय भेटा,https://www.icicibank.com/n4p4s.

दिनांक : ऑगस्ट २२, २०२२ प्राधिकृत अधिकारी

The spirit of Mumbai is now 93 years old!



S WILLIAM WINDS

www.freepressjournal.in

#### NOTICE

Mrs. Indraben Mohanlal Sharma a Member of th awez Heights Co-operative Housing Society Ltd naving address at Amboli Naka, S. V. Road, Andhe West), Mumbai - 400 058 and holding Flat No. 40 in fourth Floor in the building of the society, died o

26/06/2013 without making any nomination.

The society hereby invites claims or objections from the heir or heirs or other claimants/objector objectors to the transfer of the said shares and nterest of the deceased member in the capita roperty of the society within a period of 15 days rom the publication of this notice, with copies o uch documents and other proofs in support of his er/their claims/objections for transfer of share nd interest of the deceased member in the capital property of the society. If no claims/objections are eceived within the period prescribed above, the society shall be free to deal with the shares and iterest of the deceased member in the capita roperty of the society in such a manner as involved under the bye-laws of the society. The laims/objections, if any, received by the society for ransfer of shares and interest of the deceas nember in the capital / property of the society sha e dealt with in the manner provided under the ye-laws of the society. A copy of the registere ye-laws of the society is available for inspection by the claimants/ objectors, in the office of the society/with the Secretary of the society between 10.00 A.M. to 12.00 P.M. from the date o publication of the notice till the date of expiry of it

For and on behalf of Aawez Heights Co-operative Housing Society Ltd Place: Andheri (West), Mumbai.

Date: 22-08-2022

# **Ambuja Cement**

#### **AMBUJA CEMENTS LIMITED**

CIN: 1 26942G.11981PLC004717

Regd. Office: P. O. Ambujanagar, Taluka: Khodinar, District: Gir Somnath, Gujarat-362 715

Corporate Office: Elegant Business Park, MIDC Cross Road "B", Off Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059 Tel No.: 022-4066 7000 • Website: www.ambujacement.com • E-mail: investors.relation@ambujacement.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Ambuja Cements Limited ("Target Company") under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations") on the Open Offer (as defined below) made by Endeavour Trade and Investment Limited ("Acquirer") to the public shareholders of the Target Company

1.	Date	August 19, 2022
2.	Name of the Target Company (TC)	Ambuja Cements Limited
3.	Details of the Offer pertaining to the TC	Open offer for the acquisition of up to 51,63,52,655 (Fifty One Crore Sixty Three Lakh Fifty Two Thousand Six Hundred and Fifty Five) fully paid-up equity shares of the Target Company having a face value of INR 2 (Indian Rupees Two Only) each ("Equity Shares") representing 26% of the total voting equity share capital of the Target Company on a fully diluted basis (as of the 10th working day from the closure of the tendering period of the Open Offer) of the Target Company (including outstanding warrants and rights shares kept in abeyance exercisable into 1,86,690 and 1,39,830 Equity Shares) at a price of Rs. 385 (Indian Rupees Three Hundred and Eighty Five only) per Equity Share ("Offer Price") from the public shareholders of the Target Company ("Open Offer").  The public announcement dated May 15, 2022 ("PA"), the detailed public statement published on May 23, 2022 ("DPS"), the draft letter of offer dated May 25, 2022 ("DDF") and the letter of offer dated August 19, 2022 ("LOF") have been jointly issued by ICICI Securities Limited and Deutsche Equities India Private Limited on behalf of the Acquirer.
4.	Name(s) of the Acquirer and PAC with the Acquirer	Acquirer: Endeavour Trade and Investment Limited There are no persons acting in concert with the Acquirer for the purposes of the Open Offer.
5.	Name of the Manager to the Open Offer	ICICI Securities Limited and Deutsche Equities India Private Limited are the joint managers to the Open Offer.  ICICI Securities Limited, ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025, Maharashtra, India   Contact person: Sameer Purohit/Gaurav Mittal  Tel.: +91 22 6807 7100, Fax: +91 22 6807 7801, E-mail: acl.openoffer@icicisecurities.com, Website: www.icicisecurities.com, SEBI registration no.: INM000011179  Deutsche Equities India Private Limited, 14th Floor, The Capital, C-70, G Block, Bandra Kurla Complex Mumbai, Maharashtra – 400051   Contact person: Soumyajit Sengupta/ Prathmesh Sonawane, Tel.: +91 22 6670 5008, Fax: +91 22 7180 4199, E-mail: ambuja.openoffer@db.com, Website: www.deutschebank.co.in, SEBI registration no.: INM000010833
6.	Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	a. Mr. Nasser Munjee (Chairperson) b. Mr. Rajendra Chitale (Member) c. Mr. Shailesh Haribhakti (Member) d. Mr. Omkar Goswami (Member) e. Ms. Shikha Sanjaya Sharma (Member)
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	Each of the members of the IDC are independent directors on the board of directors of the Target Company.  a. Mr. Rajendra Chitale, Independent Director and a member of the IDC holds 4945 equity shares of the Target Company.  b. None of the other members of the IDC hold any equity shares or other securities of the Target Company;  c. None of the members of the IDC have any other contracts or relationship with the Target Company.
8.	Trading in the equity shares/ other securities of the TC by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in any of the equity shares/securities of the Target Company during the: (a) 12 months period preceding the date of the PA; and (b) period from the date of the PA till the date of this recommendation.
9.	IDC Member's relationship with the Acquirer (Director, equity shares, owned, any other contract/ relationship), if any	None of the members of the IDC:  a. are directors on the board of the Acquirer;  b. hold any equity shares or other securities of the Acquirer; or  c. have any contracts/ relationship with the Acquirer.
10.	Trading in the equity shares / other securities of the Acquirer by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in any of the equity shares/securities of the Acquirer.
11.	Recommendation on the Open Offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The IDC has reviewed the PA, the DPS, and the LOF.  Edelweiss Financial Services Limited, SEBI registered, Category I Merchant Banker, appointed by the IDC to provide its independent opinion with respect to the Offer Price, has: (i) opined that the Offer Price offered by the Acquirer (being the highest price prescribed) is in accordance with the Regulation 8(2) of the SEBI SAST Regulations and (ii) provided its opinion on the fair price per equity share of the Target Company, and opined that the Offer Price is fair and reasonable.  Based on the above, the IDC is of the opinion that, as on the date of this recommendation, the Offer Price of Rs. 385 (Indian Rupees Three Hundred and Eighty Five only) per Equity Share offered by the Acquirer is: (a) in accordance with the regulation prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and (b) the Open Offer appears to be fair and reasonable.  However, IDC would like to draw attention of the shareholders that post the Public Announcement dated May 15, 2022, the share price of the Company has increased, and the current share price is higher than the Offer Price.  The shareholders are advised to independently evaluate the open offer and take an informed decision, whether or not to tender their equity shares in the open offer.
12.	Summary of reasons for recommendations (IDC may also invite attention to any other place, e.g. company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent adviser, if any can be seen by the shareholder)	The IDC has reviewed the PA, the DPS, and the LOF.  Edelweiss Financial Services Limited, SEBI registered, Category I Merchant Banker, appointed by the IDC to provide its independent opinion, has confirmed that Offer Price of Rs. 385 (Indian Rupees Three Hundred and Eighty Five only) per Equity Share is in accordance with the Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations.  Edelweiss Financial Services Limited have also provided its opinion on the fair price per equity share of the Target Company to the IDC at its meeting held on August 19, 2022 and opined that the Offer Price of Rs. 385 (Indian Rupees Three Hundred and Eighty Five only) per Equity Share is fair and reasonable.  Based on the above, IDC is of the opinion that the Offer Price of Rs. 385 (Indian Rupees Three Hundred and Eighty Five only) per Equity Share is in compliance with the SEBI (SAST) Regulations and the Open Offer appears to be fair and reasonable.  However, IDC would like to draw attention of the shareholders that post the Public Announcement dated May 15, 2022, the share price of the Company has increased, and the current share price is higher than the Offer Price.  The shareholders are advised to independently evaluate the open offer and take an informed decision, whether or not to tender their equity shares in the open offer.  Statement of recommendation will be available on the website of the Target Company at https://www.ambujacement.com/investors
13.	Disclosure of voting pattern of the IDC	The recommendations were unanimously approved by the members of the IDC present at the meeting held on August 19, 2022

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.

independent opinion with respect to the Offer Price.

Edelweiss Financial Services Limited, SEBI registered, Category I Merchant Banker, was appointed by the IDC to provide its

Details of Independent Advisors,

15. Any other matter to be highlighted

if any

Place: Goa

Date: August 19, 2022

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of **Ambuja Cements Limited** 

> Mr. Nasser Munjee DIN: 00010180 Chairperson, Committee of Independent Directors

#### ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીની બહેરાતને ૬૦ દિવસ બાકી



કોમેડિયન રાજું શ્રીવાસ્તવની

તબિચતમાં કોઈ સુધારો નહીં

મુંબઈ, તા.૨૧

ચૂંટણીઓ નજીક આવતી જતી . બેઠક ભાજપની સુરક્ષિત બેઠક દેખાઈ રહી છે. ગુજરાત છે. ત્યારે વિધાનસભાની વિધાનસભાની ચૂંટશી ૬૦ ચૂંટશીઓ માટે ભાજપે દિવસ પછી જાહેરાત કરવામાં તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. આવશે,સીઆરપાટિલનાઆ વડોદરા તાલુકા ભવનના નિવેદન બાદ એટલું તો લોકાર્પણમાં ભાજપના પ્રદેશ ચોક્કસ નક્કી થયું છે કે હવે અધ્યક્ષ તેમ જ પંચાયત મંત્રી ચૂંટણીને બે મહિના જેટલો જ હાજર રહ્યા હતા. ૨.૪૭ . સમય બાકી રહ્યો છે. કરોડના ખર્ચબનાવવામાં વડોદરાના સાવલીમાં પ્રદેશ આવેલ નવીન તાલુકા ભાજપ અધ્યક્ષ સી આર પંચાયતનું લોકાર્પણ કરવામાં પાટીલે ચૂંટણીલક્ષી એક આવ્યું. આ પ્રસંગે પ્રદેશ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે અધ્યક્ષ સીઆર પાટિલે જણાવ્યું કે આચાર સંહિતા પોતાના સંબોધનમાં કેતન લાગુ થવા આડે હવે માત્ર ૬૦ ઈનામદાર ટિકિટ મળશે તેવો દિવસ બાકી રહ્યા છે. ૬૦ સંકેત આપ્યો હતો. ગઈ

દિવસ બાદ ચૂંટણી જાહેર થઈ ચૂંટણીમાં ૪૧ હાજર મતે

હેલ્થ બાબતે અપડેટ આપત

રાજુ શ્રીવાસ્તવના

તારીખ ૧૦ ઓગસ્ટે જણાવ્યું કે, રાજુ શ્રીવાસ્તવની

રાજુ શ્રીવાસ્તવ ટ્રેડમિલ પર સ્થિતિ હજુ પણ નાજુક છે અને

દોડી રહ્યા હતા ત્યારે ઢળી તેઓ આઈસીયુમાં છે. તેથી

પડ્યા હતા અને ત્યારથી જ વધુ તેમણે કશું જણાવ્યું નથી.

તેઓ બેભાન અવસ્થામાં છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, આ

તેઓ ભાનમાં નથી આવ્યા. મામલો દર્દી અને તેઓના

હલનચલન જોવા મળી હતી. માટે કોઈ કમેન્ટ કરી શકાય

જ્યારે ડૉક્ટરોની દેખરેખ હેઠળ નહીં. ડૉક્ટર રણદીપ

તેમની પત્નીએ રાજુના માથાને ગુલેરિયાએ રાજુ શ્રીવાસ્તવની

સ્પર્શ કર્યું હતું ત્યારે સામાન્ય હેલ્થ અંગે અત્યારે જે અપડેટ

હલચલ પગમાં દેખાઈ હતી. આપી છે તેથી ચિંતા વધી છે.

રાજુનું MRI પણ કરવામાં આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે રાજ

આવ્યું હતું. ત્યારે હવે રાજુ શ્રીવાસ્તવ જલદી સાજા થઈને

એક ન્યૂઝ રિપોર્ટ પરિવારે હોસ્પિટલમાં એક રૂમ

શ્રીવાસ્તવની હેલ્થ બાબતે પરત ફરે.

મોટી અપડેટ આવી છે.

શરીરમાં સામાન્ય પરિવારના સભ્યો વચ્ચેનો છે.

# રીતે દીકરા-દીકરીઓના ઉતરી હતી. કુટુંબીજનોના અહમ અને

થતા વિવાદ ખુબ લાંબા સમય સુધી ચાલે છે અને સરવારે દીકરા દીકરીઓનો સમયે વેડફાય છે અને બન્ને કુટુંબીજનો તનાવમાં રહે છે. આવાજ એક કિસ્સામાં

જુનાગઢ જિલ્લાના માણાવદર તાલકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા અને છૂટક વેપાર કરી, જીવન ગુજારતા ૬૦ વર્ષીય સિનિયર સિટિઝને પોતાની દીકરી તથા આગેવાનો સાથે જનાગઢ

ડિવિઝનન<u>ા</u> ડીવાયએસપીશ્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજાને મળી પોતાની દીકરીને ગામના જ એક પોતાની જ્ઞાતિના યુવક સાથે પ્રેમ થઈ જતા ભગાડી, ભાવનગરમાં લગ્ન કરી, રાજસ્થાન નાસી છૂટ્યા હતા. ભાવનગર ખાતે લગ્ન થયા ત્યારે વિધિના તેમજ અંગત પળોના ફોટા પાડી લીધા હતા. રાજસ્થાન ભાગી ગયા બાદ છોકરીને ભુલ કરી હોવાનું ભાન થતા તેણે પોતાના ઘરે ફોન કરીને ત્રીજા દિવસે પરત આવી

ગયેલ હતા. હવે છોકરી છોકરા પાસે પરત જવા માંગતી ન હોય છોકરો અને તેના ભાવનગરના સગાઓ એકના બે ન થતા હોય આખરે પોલીસને મદદ માટે ગળગળા સ્વરે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. આ બાબતે શ્રી જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ કાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ દારા રજૂઆતના આધારે સામાવાળાના સગા (भावनागरना छोय ડીવાયએસપીશ્રી જાડેજાએ ભાવનગર ખાતે પોલીસ અધિકારી તરીકે નોકરી કરેલી હોય આગેવાનો સાથે સંપર્ક કરીને જૂનાગઢ બોલાવી બન્ને પક્ષોને પોલીસની ભાષામાં

સમજાવતા બન્ને પક્ષોને રૂપિયા રાજ્યમાં છેલ્લા ૨૪ કલાકમાં કોરોનાના ૨૩૦ કેસ નોંધાયા

રાજ્યમાં દરરોજ

કોરોના કેસમાં ઘટાડો જોવા

મળી રહ્યો છે. રાજ્યમાં છેલ્લા

૨૪ કલાકમાં કોરોનાના નવા

૨૩૦ કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે

કોરોના સંક્રમણથી ૪૯૬

દર્દીઓ સાજા થયા છે. ત્યારે

રાજ્યમાં કોરોનાથી આજે એક

દર્દીનું મોત થયું નથી. આ સાથે

કોરોનાનો રિકવરી રેટ

રાજ્યમાં હાલ ૨૨૮૭ એક્ટિવ

કેસ છે. જેમાંથી ૨૨ દર્દી

વેન્ટિલેટર પર છે. જયારે

૨૨૬૫ દર્દીઓ સ્ટેબલ છે

રાજ્યમાં કોરોનાને અત્યાર

સુધીમાં કુલ ૧૨,૫૪,૪૯૪

રાજ્યમાં હાલ કુલ દર્દીઓની વિગતો જોઈએ તો

૯૮.૯૫ ટકા થઈ ગયો છે.

#### મુજબ, ડૉક્ટર રણદીપ બુકકરાવ્યો છે જેથી તેઓ ત્યાં બોચકોટ બોલિવુડ ટ્રેન્ડ પર બોલીને જબરો ફસાર્યો અર્જુન



મુંબઈ,તા.૨૧ રહ્યું છે અને લોકો પોતાનો કપૂરે તાજેતરમાં જ હિન્દી આખરે અર્જુન કપૂરના કયા ફ્રેલ્મોના બોયકોટને લઈને જે નિવેદન પર રાતાપીળા થઈ ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે તેના પર રહ્યા છે તે વિસ્તારથી જાણી . પોતાનો પક્ષ મૂક્યો હતો. લઈએ. 'એક વિલન અર્જુને કહ્યું હતું કે, આ મુદ્દે ચૂપ રિટર્ન્સ'ના એક્ટરે એક રહીને કલાકારોએ ભૂલ કરી છે ઈન્ટરવ્યૂમાં કહ્યું હતું કે, 'મને અને ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીની લાગે છે કે અમે આ મુદ્દે મૌન શાલીનતાનો લોકોએ ગેરલાભ રહીને મોટી ભૂલ કરી છે અને ઉઠાવ્યો છે. અર્જુન કપૂરે આ આ અમારી શાલીનતા હતી નિવેદન તો આપી દીધું પરંતુ પ હવે લોકોએ તેનો ઉધડો લેવાનું લોકોએ તેનો ખોટો શરૂ કર્યું છે. ફરી એકવાર તે ફાયદો ઉઠાવ્યો. અમારું લોકોના નિશાને ચડ્યો છે. કામ બોલશે એ વિચારીને અર્જુન કપૂરની એક્ટિંગ પણ મોટી ભૂલ કરી નાખી. સ્કીલથી માંડીને મલાઈકા હંમેશા હાથ ખરાબ કરવાની અરોરા સાથેના તેના સંબંધને જરૂર નથી હોતી પરંતુ ઘશું

બોલિવુડ એક્ટર અર્જુન બળાપો કાઢી રહ્યા છે. લોકો

લઈને તેની ટીકા થઈ રહી છે. સહન કર્યું છે અને હવે લોકોએ સોશિયલ મીડિયા પર આ વાર્તને પોતાની આદત #ArjunKapoor ટ્રેન્ડ થઈ બનાવી લીધી છે. હવે પાણી

#### ભાગીને લગ્ન કરીને પસ્તાતી યુવતી જૂનાગઢ પોલીસની મધ્યસ્થીથી છુટકારો પામી



તા. ૨૧, કરતા પોતાના સંતાનોની હાલના સાંપ્રત સમયમાં જીંદગી વધુ કિંમતી હોવાનું અને કામગીરીથી ઉજાસ છવાયો કાચી ઉંમરના દીકરી-દીકરાઓ હાલના સમયમાં બન્નેનું જીવન હતો અને બન્ને પરિવારોએ દ્વારા લેવામાં આવતા વેડફાતુ હોવાનું તથા બન્નેના પોતાના સંતાનોનું જીવન ઝેર અપરિપક્વ નિર્ણયના કારણે અપરિપક્વ નિર્ણયના કારણે થઈ જાત તેવી ભીતી વ્યક્ત માતા-પિતાને ક્ષોભજનક અમુલ્યજીવન બરબાદ થઈ શકે કરીને જૂનાગઢ પોલીસનો પરિસ્થિતિમાં મુકી દેતા હોય છે. તેમ હોવાનું સમજાવતા બન્ને વારવાર આભાર માન્યો હતો. આવા કિસ્સાઓમાં સામાન્ય કુટુંબોને પોલીસની વાત ગળે આમ જૂનાગઢ પોલીસે સુરક્ષા

હું કુ ખેંચાખેંચીના કારણે કોર્ટ મેટર પોલીસે મધ્યસ્થી થઈને છેએ સૂત્ર સાર્થક કર્યું હતુ.

રાજીખુશીથી છુટ્ટા પડી છુટાછેડા આપવા તૈયાર થઈ ગયા હતા. બન્ને પક્ષોએ રાજીખુશીથી છુટા પડ્યાનું નોટરી પાસે લખાણ પણ કરી દેવાયું હતુ. આમ પોલીસની મધ્યસ્થીથી દીકરા દીકરીની અપરિપક્વતાને કારણે બન્ને પરિવારમાં જે અંધકાર છવાયો હતો તેમાં પોલીસની સંવેદના પુર્વકની ઉપરાંત સેવાનું દાયિત્વ આ બાબતે જૂનાગઢ નિભાવીને પોલીસ પ્રજાનો મિત્ર

ડિસેમ્બરમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી ચોજાવાની છે રાજ્યભરમાં મતદાર ચાદી સુધારણા <sub>अकरातमा</sub> झार्यक्रमनी शरुआते

ડિસે મ્બર મહિનામાં વિધાનસભાની ચંટણી યોજાવાની છે. ચૂંટણીને લઈને ચૂંટણી પંચ દ્વારા સતત તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. ચૂંટણી તૈયારીના ભાગ રૂપે જરૂરી પૂરાવા લઈને સુધારા કરાવી શકે છે.

यार रविवार सुधी लोडो पोतान વિસ્તારની પ્રાથમિક શાળામાં નવા ચૂંટણી કાર્ડ કે

ચૂંટણી કાર્ડમાં ફેરફાટ કરાવી શકશે દ્વારા મળેલી માહિતી અનુસાર કેરકાર કરાવવાનો હોય તે ગુજરાતભરમાં રિવવારથી વ્યક્તિ પોતાના વિસ્તારની મતદાર સુધારણા કાર્યક્રમની પ્રાથમિક શાળાની મુલાકાત ચૂંટણી પંચ દ્વારા મતદાર યાદી શરૂઆત કરવામાં આવી છે. લઈ શકે છે. જ્યાં સવારે ૧૦ સુધારણા કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં રાજ્યમાં ૨૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૨ કલાકથી સાંજે ૫ કલાક સુધ ખાવ્યો હતો. રવિવારથી રવિવાર, ૨૮ ઓગસ્ટ૨૦૨૨ આ કામ હાથ ધરવામા<u>ં</u> રાજ્યભરમાં મતદાર સુધારણા રવિવાર, ૪ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨ આવશે. જે વ્યક્તિએ ચૂંટણી કાર્યક્રમની શરૂઆત થઈ હતી. રવિવાર અને ૧૧ સપ્ટેમ્બર કાર્ડમાં કોઈ ફેરફાર મતદાર યાદી સુધારણામાં જે ૨૦૨૨ રવિવાર એટલે કે કરાવવાનો હોય અથવા જેછે વ્યક્તિએ નવું મતદાન કાર્ડ આજથી સતત ચાર રવિવાર નવુંચૂંટણીકાર્ડકઢાવવાનું હોય ક્ઢાવવાનું હોય કે કોઈફેરફાર સુધી મતદાર સુધારણા કાર્યક્રમ તે વ્યક્તિએ આધાર કાર્ડ કરાવવાનો હોય તે વ્યક્તિ ચાલવાનો છે. પ્રાપ્ત વિગત (ઝેરોક્ષ), શાળાનું લિવિંગ અનુસાર જે વ્યક્તિએ નવું સર્ટિફિકેટ (ઝેરોક્ષ), ઘરના ચૂંટથી કાર્ડ કઢાવવાનું હોય કોઈ એક સભ્યનું ચૂંટથી કાર્ડ અથવા તો ચૂંટણી કાર્ડમાં જરૂરી (ઝેરોક્ષ) અને એક પાસપોર્ટ

#### Ambuja Cement

#### AMBUJA CEMENTS LIMITED

CIN: L26942GJ1981PLC004717

Regd. Office: P. O. Ambujanagar, Taluka: Khodinar, District: Gir Somnath, Gujarat-362 715

brate Office: Elegant Business Park, MIDC Cross Road "B", Off Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059

Tel No.: 022-4066 7000 • Website: www.ambujacement.com • E-mail: investors.relation@ambujacement.com Corporate Office

ns of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Ambuja Cements Limited ("Target Company") under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations") on the Open Offer (as

1.	Date	August 19, 2022
2.	Name of the Target Company (TC)	Ambuja Cements Limited
3.	Details of the Offer pertaining to the TC	Open offer for the acquisition of up to 51,63,52,655 (Fifty One Crore Sixty Three Lakh Fifty Two Thousand Six Hundred and Fifty Five fully paid-up equity shares of the Target Company having a face value of INR 2 (Indian Rupees Two Only) each ("Equity Shares representing 25% of the total voting equity share explain of the Target Company on a tully disturb assis (as of the 10th working day for the closure of the tendering period of the Open Offer) of the Target Company (including outstanding warrants and rights shares kept a deepence exerciseable into 1,8,660 and 13,8,380 Equity Shares) at a price of 18,385 (indian Rupees Three Hundred and Elighty Nonly) per Equity Share ("Other Price") from the public shareholders of the Target Company ("Open Offer"). The public announcement dated May 15, 2022 ("A"). The detailed public statement published on May 23, 2022 ("DPS"), the draft lettle of offer dated May 25, 2022 ("LOF") and the letter of offer dated August 19, 2022 ("LOF") have been jointly issued by IGICI Securitie Limited and Deutsche Equities Indian Private Limited on the half of the Acquiset 19, 2022 ("A").
		Acquirer: Endeavour Trade and Investment Limited There are no persons acting in concert with the Acquirer for the purposes of the Open Offer.
5.	Name of the Manager to the Open Offer	ICICI Securities Limited and Deutsche Equities India Private Limited are the joint managers to the Open Offer.  ICICI Securities Limited. (ICIC) Venture House, Appassabe Marathe Marg, Prabhadevi, Murribai 400 025, Maharashtra, India   Contaperson: Sameer PurchiliGaurav Mittal  Tai: +91 22 6807 7100, Fax: +91 22 6807 7801, E-mail: acl.openoffer@icicisecurities.com, Website: www.icicisecurities.com, SEff registration no.: 18M000011179  Deutsche Equities India Private Limited, 14th Floor, The Capital, C-70, G Block, Bandra Kurla Complex Mumbai, Maharashtra - 40005    Contact person: Soumyailt Senguptaly Prathmesh Sonawane, Tel: +91 22 6870 8006, Fax: +91 22 7180 4195  E-mail: ambig.openoffer@ich.com, Website: www.deutschebank.com, SEffregistration no.: INM000010833
6.	Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	a. Mr. Nasser Munijee (Chairperson) b. Mr. Rajendra Chitale (Member) c. Mr. Shalesh Halibhaki (Member) d. Mr. Ornkar Goswami (Member) e. Mr. Shalesh Sanjaya Sharma (Member)
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	Each of the members of the IDC are independent directors on the board of directors of the Target Company.  a. Mr. Rajendra Chitale, Independent Director and a member of the IDC holds 4945 equity shares of the Target Company.  b. None of the other members of the IDC hold any equity shares or other securities of the Target Company;  c. None of the members of the IDC have any other contracts or relationship with the Target Company.
8.	Trading in the equity shares/ other securities of the TC by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in any of the equity shares/securities of the Target Company during the: (a) 12 month period preceding the date of the PA; and (b) period from the date of the PA till the date of this recommendation.
9.	IDC Member's relationship with the Acquirer (Director, equity shares, owned, any other contract/ relationship), if any	None of the members of the IDC:  a rare directors on the board of the Acquirer;  b, hold any equity shares or other securities of the Acquirer; or  c, have any contracts/relationship with the Acquirer.
10.	Trading in the equity shares / other securities of the Acquirer by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in any of the equity shares/securities of the Acquirer.
11.	Recommendation on the Open Offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The IDC has reviewed the PA, the DPS, and the LOE Edebraies Financial Schroice Limited. SERI registered, Category I Merchant Banker, appointed by the IDC to provide its independence opinion with respect to the Office Price, has, (i) apined that the Office Price offered by the Acquirer (being the highest price prescribed) in accordance with the Regulation (80) of the SEBI SAT Regulations and (ii) provided its opinion on the fair price per equity whate or the Target Company, and opined that the Offer Price is fair and reasonable. Based on the above, the IDC is of the Opinion that, as on the date of this recommendation, the Offer Price of Rs. 385 (findian Ruper Three Hundred and Eighty Five only) per Equity Share offered by the Acquirer is: (a) in accordance with the regulation prescribe under the SEBI (SAST) Regulations; and (b) the Open Offer appears to be fair and reasonable. However, IDC would like to draw attention of the shareholders that post the Public Announcement dated May 15, 2022, the share pric of the Company has increased, and the current share price is higher than the Offer Price. The shareholders are advised to independently evaluate the open offer and take an informed decision, whether or not to tender the equity shares in the open offer.
12.	Summary of reasons for recommendations (IDC may also invite attention to any other place, e.g., company's website, where its detailed, where its detailed with written advice of the independent adviser, if any can be seen by the shareholder)	The IDC has reviewed the PA, the DPS, and the LOF.  Edelweiss Financial Services Limited, SEBI registered, Category! Merchant Banker, appointed by the IDC to provide its independency opinion, has conformed that Offier Price of Pla. 385 (Indian Rupees Three Hundred and Eighty Five only) per Equity Share is a accordance with the Regulation 8(2) of the SEBI (ISAST) Regulations expected that the Regulation 8(2) of the SEBI (ISAST) Regulations expected that the Regulation 8(2) of the SEBI (ISAST) Regulations expected that the Regulation 8(2) of the SEBI (ISAST) Regulations expected that the Regulation 8(2) of the SEBI (ISAST) Regulations expected that the Regulation 8(2) of the SEBI (ISAST) Regulations expected that the Offier Price of Rs. 385 (Indian Rupees Three Hundred and Eighty Five only per Equity Share is lar and reasonable.  Based on the above, IDC is of the opinion that the Offer Price of Rs. 385 (Indian Rupees Three Hundred and Eighty Five only) per Equit Share is in compliance with the SEBI (ISAST) Regulations and the Open Office appears to be fair and reasonable.  However, IDC would like to draw attention of the shareholders that post the Public Announcement dated May 15, 2022, the share price of the Company has increased, and the current share price is higher than the Offer Price.  The shareholders are advised to independently evaluate the open offer and take an informed decision, whether or not to tender the equity shares in the open offer.

Place: Goa Date: August 19, 2022 દર્દીઓ મ્હાત આપી ચુક્યા છે.

13. Disclosure of voting pattern of the IDC

15. Any other matter to be highlighted None

The recommendations were unanimously approved by the members of the IDC present at the meeting held on August 19, 2022

Chairperson, Committee of Independent Dire

कब्जे की नोटिस

## ऐक्सिस बैंक

टेल एसेट्स सेटर: प्रथम तल, जी–4/5 बी सेटर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ– 226010

| रजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद—380006 जबिक, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पिठत धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टेगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह—ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट | की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार / गारन्टरों का नाम	सुरक्षित सम्पत्ति का	सार बकाया राशि
एवं पता	विवरण	मांग सूचना की तिथि
, , , , , ,		कब्जे की तिथि
मैं हरी कृपा फार्मा (ऋणी): कार्यालय पताः	1. भूमि / सम्पत्ति स्थित मकान नं0 सी–57, सेक्टर–	₹50 1,01,80,071
दुकान नं. ए1, न्यू मेडीसेन मार्केट के सामने	डी, कानपुर रोड योजना, लखनऊ। एरियाः 185.09	₹50 27,33,449.50
अमीनाबाद, लखन्ऊ उ०प्र0— 226018,	वर्ग मी., <b>चौहद्दीः</b> पूर्व—9 मीटर चौड़ा रोड, पश्चिम—	रू0 23,26,572.48
आशुतोष गुप्ता (प्रोपराइटर) पुत्र श्री हरी	डिग्री कॉलेज की साइट, उत्तर— प्लॉट नं0 सी—56,	
शंकर गुप्ता, आरती गुप्ता (गारण्टर) पत्नी	दक्षिण— प्लॉट नं0 सी—58	दि. 30.04.2022 तक
श्री आशुतोष गुप्ता दोनों का पताः सी—57, कानपुर रोड, सेक्टर—डी, एल०डी०ए०	2. भूमि / सम्पत्ति दुकान न0 ए-1 स्थित प्रथम तल,	+ देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
कानपुर राड, सक्टर—डा, एल०डा०ए० कॉलोनी, सी०एम०एस० डिग्री कॉलेज के	भवन नं0 110/9केए गाँव पूर्वी, वार्ड शिवाजी मार्ग,	
पीछे, लखनऊ, उ०प्र0—226012	लखनऊ। एरियाः 11.97 वर्ग मी., चौहद्दीः पूर्व	30.05.2022
110, (14 10,, 00,0 220012	दुकान नं0 1, पश्चिम—दुकान नं0 2, उत्तर— 6 फीट चौड़ा रोड, दक्षिण— इमाम अली की सम्पत्ति।	16.08.2022
अंजन बनर्जी (ऋणी) पुत्र ए०के० बनर्जी,	<ol> <li>भूमि/सम्पत्ति स्थित डी-1/880, सेक्टर-एच,</li> </ol>	
पता:1— 117/के/93 आर एस पुरम,		दि. 25.05.2022 तक
काकादेव, कानपुर नगर, उ0प्र0— 208025,	(उ0प्र0) 226012, सम्पत्ति श्रीमती परथा प्रतीम बनजी	+ देय ब्याज एवं
पताः 2—डी—1 / 880, सेक्टर एच,	के नाम। एरियाः 119.35 वर्ग मी, <b>चौहद्दीः</b> पूर्व—	अन्य खर्च
एल0डी0ए0 कॉलोनी, कानपुर रोड योजना,	प्लॉट नं0 डी—1 / 879 / एच, पश्चिम— प्लॉट नं0 डी—1 / 881 / एच, उत्तर— ईडब्ल्यूएस मकान,	25.05.2022
लखनऊ, (उ०प्र०)—226012, श्रीमती पमेला	दक्षिण— 9 मीटर चौड़ा रोड।	
बनर्जी (सह—ऋणी) पत्नी श्री अंजन बन	र्जी पताः 117/के/93 आर एस पुरम, काकादेव,	17.08.2022
कानपुर नगर, उ०प्र०— 208025, परथा प्रतीग	ा पुत्र जितेन्द्र मोहन, पताः डी−1 ∕ 880, सेक्टर एच, ।	
एल0डी0ए0 कॉलोनी, कानपुर रोड योजना,	লखनऊ, (उ0प्र0)—226012	
दिनांकः 22.08.2022	प्राधिकृत	। अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

टाटा कैपिटल फाईनांशियल सर्विसेस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 1 1 वीं मंजिल, टॉयर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई-4000 13. TATA शाखां का पता : सांई टॉवर, दूसरी मंजिल, 9, भागवा इस्टेट, सिविल लाईन्स, कानपुर, उत्तर प्रदेश -20800 1

अचल संपत्ति के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई—नीलामी विक्रय सूचना। ऋण खाता सं. 8742434ः लक्ष्मी ऑयल एंड वनस्पति प्रा. लि.

रतदद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न वर्णित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता को सूचित किया जाता है कि **टाटा कैपिटल फाइनेंशियल** सर्विसेज लि. (प्रतिभूत ऋणदाता / टीसीएफएसएल) के पास बंधक रखी गई निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका आधिपत्य वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि अधिनियम) (2002 की सं. 54) की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुपालन में, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के प्राधिकृत अधिकारी (प्रतिभूत ऋणदाता) द्वारा ले लिया गया है, ऐसी निम्नलिखित अचल संपत्तियों का विक्रय दिनांक 14 सितंबर 2022 को ''जैसी है जहां है आधार'' और ''जैसी है जो है एवं वहां जो कुछ भी है एवं बिना संसाधन आधार'' पर किया जाएगा

चूंकि प्रतिभुत परिसंपत्ति का विक्रय जो है वह प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए किया जाना है तथा चूंकि यहां उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं / गारंटरों अर्थात 1. मैसर्स लक्ष्मी ऑयल एंड वनस्पति प्रा. लि., अपने निदेशक / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से, 704 कॉन चैंबर्स, 7वां तल, 14 / 113 सिविल लाइंस (यू.पी. स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग के समीपस्थ), कानपुर, उत्तर प्रदेश-208001, यहां पर भी: 112/246, स्वरूप नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208002, यहां पर भीः भूखंड सं. 39-ए, मकान सं. 7/182 का उत्तरी भाग, स्वरूप नगर, कानपुर सिटी, उत्तर प्रदेश-208002, यहां पर भी 97, खान चांदपुर, निकट–उमरान ढाबा, रनिया अकबरपुर, कानपुर–देहात, उत्तर प्रदेश–209304, 2. केशव सिंह गौड, बी–76, आकृति गार्डन, नेहरू नगर, हुजूर भोपाल, सी.टी.टी. नगर, मध्य प्रदेश-462003, 3. मैसर्स आरएसए वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, अपने निदेशक के माध्यम से, 446 टोटल एंवायरनमेंट रेनरोप्स, 10-1/2, हरलूर रोड, सरजापुर रोड, बैंगलोर, कर्नाटक-560102, यहां पर भीः फ्लैट सं. एच-003, ओजोन एवरग्रीन अपार्टमेंट्स हरलूर रोड, सरजापुर रोड, बैंगलोर, कर्नाटक-560102, 4. कमल दीप त्रिपाठी पुत्र रमेश त्रिपाठी, ओ-605, एल्डिको पार्क व्यू अपार्टमेंट्स, निकट पुरानिया सी एल्डिको पार्क व्यू, सीतापुर रोड, निराला नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226020, यहां पर भी: आर–402, एल्डिको पार्क व्यू अपार्टमेंट्स निकट पुरानिया सी एल्डिको पार्क व्यू, सीतापुर रोड, निराला नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226020, 5. सतीश कुमार रावत, लक्ष्मीपुरा वार्ड, इतवारा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश-470002 की ओर से धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना दिनांकित 11 जून 2020 द्वारा मांगकृत 11.06.2020 के अनुसार ऋण खाता 8742434 द्वारा रु. 56,75,629 / – (रुपए छप्पन लाख पिचहत्तर हजार छह सौ उनतीस मात्र) की एक राशि देय—भुग्तेय थी।

अतः एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि विक्रय के किसी स्थगन/समापन के नहीं होने की स्थिति में, उक्त संपत्ति का विक्रय, टीसीएफएसएल जिसका शाखा कार्यालय साई टॉवर, द्वितीय तल, 9, भार्गव एस्टेट, सिविल लाइंस, कानपुर, उत्तर प्रदेश–208001 में स्थित है, द्वारा ई–नीलामी के माध्यम से उक्त दिनांक 14 सितंबर 2022 को अप. 2.00 बजे किया जाएगा। धराज डिमांड ड्राफ्ट के साथ संपत्ति के क्रयार्थ मोहरबंद ई–नीलामी को टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त 13 सितंबर 2022 को सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किया जाएगा।

प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण	आधिपत्य का प्रकार रचनात्मक/ भौतिक	आरक्षित मूल्य (रु.)	धराहर राशि धराज (रु.)
परिसर सं. 7/182 के भाग की खुली भूमि जो भूखंड सं. 39—ए पर निर्मित है जो उत्तरी भाग पर है जिधर उसका माप 125 वर्ग मीटर है जो कुल क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर में से है जो स्वरूप नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है जिसका अधिक विशिष्टतापूर्ण विवरण विक्रय विलेख दिनांकित 22.05.2017 में किया गया है जो विलेख मैसर्स लक्ष्मी ऑयल एंड वनस्पति प्रा. लि., अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कमल दीप त्रिपाठी के माध्यम सं, के पक्ष में निष्पादित है और यह निष्पादन उप—पंजीयक—।। कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में बही संख्या 1, खण्ड संख्या 8304 के पृष्ठ संख्या 267 से 304 पर क्रमांक 2201 पर दिनांकित 22.05.2017 को पंजीकृत है।		रु. 75,32,000 / – (रुपए पिचहत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र)	रु. 7,53,200 / – (रुपए सात लाख तिरेपन हजार दें सौ मात्र)

संपत्ति का विवरण जिसे विक्रय हेतू रखा जाएगा, वह अनुसूची में दिया गया है। विक्रय को तब रोक दिया जाएगा जब उपर्युक्तानुसार एवं लागतों का (विक्रय की लागत सहित) 'प्राधिकृत अधिकारी' को भूगतान कर दिया जाएगा अथवा उनके संतोषार्थ यह साक्ष्य दे दिया जाएगा कि ऐसे प्रतिभत ऋण की राशि, ब्याज और लागतों का भगतान कर दिया गया है। विक्रय कार्यवाही में, सर्वसाधारण को व्यक्तिगत रूप में अपनी निविदा जम करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कोई भी अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति जिसकी इस विक्रय के संबंध में कोई डयुटी निर्धारित है, वह प्रत्यक्ष अथव अप्रत्यक्ष रूप में बोलीदान नहीं कर सकेगा, बेची गई संपत्ति में कोई हित अर्जित नहीं कर सकेगा अथवा अर्जित करने का प्रयास नहीं कर सकेगा। विक्रय जो होगा वह सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत निर्धारित नियमों / शर्तों के अधीन होगा। ई—नीलामी जो होगी वह 10 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ 14 सितंबर 2022 को अप. 2.00 बजे से लेकर 3.00 बजे के मध्य पोर्टल https://diposalhub.com के माध्यम से संचालित होगी। संपत्ति के क्रयार्थ जमा की गई सभी बोलियों के साथ, ऊपर वर्णितानुसार धरोहर राशि, ''टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि.'' के पक्ष में आहरित कानपुर उत्तर प्रदेश में भगतानयोग्य एक डिमांड डाफ्ट के माध्यम से संलग्न करनी होगी। संपत्ति का निरीक्षण 02.09.2022 को 11.00 बजे से लेकर

टिप्पणीः इच्छक बोलीदातागण प्राधिकृत अधिकारी श्री अयान भटटाचार्य को ईमेल आईडी Ayan.Bhattacharya@tatacapital.com और उनके मोबाइल विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभृत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात https://www.tatacapital.com/content/dam/tata

capital/pdf/tcfsl/AUCTIONTERMS%26CONDITIONS.pdf में उपलब्ध लिंक का संदर्भ लें अथवा प्राधिकृत अधिकारी या सेवा प्रदाता— नेक्सन सॉल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें।

स्थानः कानपुर, उत्तर प्रदेश दिनांकः 22.08.2022

प्राधिकृत अधिकारी कृते टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

### साकेतिक आधिपत्य सूचना

पंजीकत कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, बांद्रा-कूर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) ि ICICI Home Finance मुंबई-400051

निगमित कार्यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कूर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई-400059 **शाखा कार्यालयः** कार्यालय संख्या ८, द्वितीय तल, समृद्धि बिजनेस सूट्स, 38/4–ए, संजय प्लेस, आगरा–282002

शाखा कार्यालयः 200/45/4, प्रथम तल, इंदिरा ऑर्केंड, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, इलाहाबाद–211001 **शाखा कार्यालयः** भतल, 104/438, पी. रोड, सिसामऊ, रामबाग चौराहा, कानपुर—208012

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्न संवर्णित ऋणकर्ताओं को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें सूचनाओं में अंकित राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभूगतान करने को कहा गया था।

चुंकि ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ता को एवं जनसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का आधिपत्य, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्नांकित तिथियों पर ग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, **आईसीआईसीआई होन फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्रभाराधीन होगा

	क्र. सं.	ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता/ के नाम/ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/ आधिपत्य की तिथि	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना में	शाखा का नाम
8	1.	सन्नी पंजवानी (ऋणकर्ता), नेहा पंजवानी (सह—ऋणकर्ता) LHAGR00001293593	निम्न भूतल छत के बिना नगर निगम सं. 37 273 वेक मौजा नागलापाड़ी हरिपर्वत वार्ड आगरा उत्तर प्रदेश 282005, परिसीमन इस प्रकार: उत्तर— अन्य संपत्ति, दक्षिण— अन्य दूकान, गलियारा 2.43मी. चौड़ा / निकास, पूर्व— दूकान सं. 4, पश्चिम— गली 5 फुट आधिपत्य की तिथि— 18 अगस्त 2022	रु. 31,23,411 ∕ −	आगरा—बी
	2.	रीता (ऋणकर्ता), योगेश कुमार (सह—ऋणकर्ता) LHAGR00001294623	भूखंड सं. 68 का भाग, खसरा सं. 2118 वेक किरण बाग नागला रामबल मौजा नराइच तहसील इतमादपुर आगरा उत्तर प्रदेश, परिसीमन इस प्रकारः उत्तर— भूखंड सं. 67, दक्षिण— भूखंड का भाग, पूर्व— भूखंड सं. 85, पश्चिम— रास्ता 20 फुट, आधिपत्य की तिथि— 18 अगस्त 2022	1 12-05-2022 ₹. 12,33,956 / -	आगरा–बी
	3.	रीता (ऋणकर्ता), योगेश कुमार (सह—ऋणकर्ता) LHAGR00001296762	भूखंड सं. 68 का भाग, खसरा सं. 2118 वेक किरण बाग नागला रामबल मौजा नराइच तहसील इतमादपुर आगरा उत्तर प्रदेश, परिसीमन इस प्रकारः उत्तर— भूखंड सं. 67, दक्षिण— भूखंड का भाग, पूर्व— भूखंड सं. 85, पश्चिम— रास्ता 20 फुट, आधिपत्य की तिथि— 18 अगस्त 2022	12—05—2022 枣. 2,21,176 /—	आगरा–बी
	4.	सुमन सिंह (ऋणकर्ता), सुरेश कुमार सिंह (सह—ऋणकर्ता) LHALD00001323156	अरजी सं. 281 एमआई 282 एमआई मौजा चकबाबुरा विंग नं. 3 अलीमाबाद परगना अराइल एवं तहसील करचाना, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश—211008, पिरसीमन इस प्रकारः उत्तर— 12 फुट चौड़ा रास्ता, दक्षिण— सीम खान की भूमि, पूर्व— अरजी का शेष भाग, पिश्चम— अन्य भूमि आधिपत्य की तिथि— 18 अगस्त 2022	22—12—2021 रु. 16,05,397 /—	इलाहाबाद— बी
66	5.	गिरीश चंद्र शर्मा (ऋणकर्ता), गौरव (सह—ऋणकर्ता) LHAGR000013540436	खसरा स. 49 एवं 77 जीएच मौजा हुंमायूपुर तहसील एवं जनपद फिरोजाबाद मिडिल क्ला 11 फिरोजाबाद में स्थित, परिसीमन इस प्रकारः उत्तर— सतीश चंद्र का मकान, दक्षिण— किशन शर्मा का मकान, पूर्व— गैलरी 4 फुट चौड़ी, पश्चिम— चोखेलाल का मकान आधिपत्य की तिथि— 18 अगस्त 2022	16-03-2022 枣. 14,39,699 / -	आगरा–बी
25	6.	आदित्य सिंह (ऋणकर्ता), शशि (सह—ऋणकर्ता) LHKAN00001296553	मकान सं. ४२ए, अरजी सं. ४९ एमआई का भाग, सैनिक नगर, अहीरवां, कानपुर, उत्तर प्रदेश, परिसीमन इस प्रकारः उत्तर— 6.10 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण— राम खिलावन विश्वकर्मा का भूखंड, पूर्व— 6.10 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम— इंद्र भवन गुप्ता का भूखंड आधिपत्य की तिथि— 18 अगस्त 2022	12—05—2022 रु. 21,94,398 / —	कानपुर—बी
8	7.	आदित्य सिंह (ऋणकर्ता), शशि (सह—ऋणकर्ता) NHKAN00001298554	मकान सं. ४२ए, अरजी सं. ४९ एमआई का भाग, सैनिक नगर, अहीरवां, कानपुर, उत्तर प्रदेश, परिसीमन इस प्रकारः उत्तर— 6.10 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण— राम खिलावन विश्वकर्मा का भूखंड, पूर्व— 6.10 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम— इंद्र भवन गुप्ता का भूखंड आधिपत्य की तिथि— 18 अगस्त 2022	12—05—2022 रु. 14,49,801 / —	कानपुर—बी

ऊपर-वर्णित ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को एतदद्वारा निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने के लिए एक 30 दिवसीय सूचना दी जाती है, अन्यथा बंधककृत संपत्तियों का, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के समापन पर, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, विक्रय कर दिया जाएगा।

दिनांकः 22 अगस्त 2022 स्थानः आगरा, इलाहाबाद, फिरोजाबाद, कानपुर

प्राधिकृत अधिकारी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेच, चंडीगढ़ के समक्ष सीए (सीएए) नं. 3/चंडी./हिप्र/2022 से संबंधित

सीपी (सीएए) नं. 45/चंडी./हिप्र/2022 कंपनीज़ (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232, 52 और 66 के अंतर्गत

की समामेलन की योजना के विषय में:

एआरवी हाइड़ो पॉवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कंपनीज एक्ट, 1956 के अंतर्गत दर्ज कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय एससीओ 140-141, सैक्टर 34ए, चंडीगढ़-160034 में है

..आवेदक कंपनी−1/अंतरक कंपनी कपिल मोहन एंड एसोसिएट्स हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत दर्ज एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय मकान नंबर 99, सेक्टर 3, न्यू शिमला, शिमला, हिमाचल प्रदेश में है। ...आवेदक कंपनी- 2/अंतरिती कंपनी

याचिका की सुनवाई हेतु सूचना नोट करें कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अधीन दिनांक 17.05.2022 को एआरर्व हाइड्रो पॉवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, अंतरक कंपनी के साथ कपिल मोहन एंड एसोसिएट्स हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड, अंतरिती कंपनी तथा उनके संबंधित शेयरधारकों, लेनदारों और डिबेंचर धारकों के समायोजन की योजना को मंजूरी देने के लिए 26.05.2022 को डायरी नं. 0404115011072022 द्वारा संयुक्त प्रस्तुति दी थी तथा माननीय नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ के समक्ष 12.07.2022 को दाखिल किया था। कथित याचिका को उनके आधिपत्य माननीय श्री हरनाम सिंह ठाकुर, सदस्य (न्यायिक) व उनके आधिपत्य, माननीय श्री सुब्रत कुमार दास, सदस्य (तकनीकी) या ऐसे अन्य सदस्य के समक्ष 14.10.2022 को दोपहर से पूर्व या उसके बाद सुनवाई के लिए निश्चित किया है।

कथित याचिका की सुनवाईं के समर्थन या निषेध के इच्छुक किसी व्यक्ति को अपने आशय का नोटिस माननीय नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ में अभ्यास के लिए शामिल वकील/कानूनी पेशेवर द्वारा याचिका की सुनवाई के लिए निश्चित तिथि से चार दिन पूर्व श्री यश पाल गुप्ता, वकील, कारपोरेट ज्यूरिस्ट्स् बंगला नंबर 438 एजी, ईएमएएआर, सेक्टर 109, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब- 140306 को लिखित मे

पहंच जानी चाहिए। यदि आप कथित याचिका का विरोध करना चाहते है, निषेध के कारणों या शपथपत्र की प्रति को ऐसे नोटिस के साथ उपरोक्त अनुसार याचिकाकर्ता वकील को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपरकथित याचिका की प्रति याचिकाकर्ता वकील द्वारा प्रति के इच्छुक किसी व्यक्ति को उसके के लिए निर्धारित

प्रभारों की अदायगी पर किसी भी कार्यदिवस को प्रस्तुत की जाएगी।

स्थानः चंडीगढ

तिथिः 20.08.2022

कृते एआरवी हाइड्रो पॉवर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी सचिव तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरी

निदेशक तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरी कृते कपिल मोहन एंड एसोसिएट्स हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड

प्रमोद कुमार

लि. (आईआईएफएलएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर यहाँ नीचे वर्णित ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णि ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम व ारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

वंशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय यहाँ नीचे वर्णित राग्नि के साथ उस पर ब्याज के लिये आईआईएफएल एचएफएल के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है कि यदि ऋणधारक विक्री अथवा अंतरण के लिये निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय वहन की गई स तागतों, चार्जेज एंव खर्चे के साथ ''आईआईएफएल एचएफएल'' के बकाये का भुगतान कर देते हैं तो ''आईआईएफएल एचएफएल'' द्वारा प्रतिभृत परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा अंतरण नहीं की जाएगी तथा प्रतिभृ

1					
	ऋणधारकों का नाम	प्रतिभृत परिसम्पत्ति	कुल बकाया देयता (रु.)	माँग सूचना	कब्जा
	सह-ऋणधारक	(अचल सम्पत्ति का विवरण)		तिथि	सूचना तिशि
	श्री रोहन कुमार, श्रीमती आशा	सम्पत्ति का सभी तथा हिस्साः यूजीएफ फ्रान्ट साइड, छत के अधिकार के बिना, प्लॉट नं	₹. 29,78,449/- (₹.	15 जून,	18 अग. 22
	रानी, श्री अशोक कुमार	डब्ल्यूजेड-20, एरिया माप 50 वर्ग यार्ड्स, कुल भूमि क्षेत्रफल 100 वर्ग यार्ड्स में, खसर	उन्नतीस लाख अठहत्तर हजार	2022	
	(प्रॉस्पेक्ट नं. 940089)	नं. 88/4, प्रेम नगर ग्राम हस्तसाल, उत्तम नगर, नई दिल्ली, भारत-110059	चार सौ उन्चास मात्र)		

अधिक विवरणों के लिये कृपया **शाखा कार्यालय:** प्लॉट नं. 30/30ई, ऊपरी भू तल, मैन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शो रूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली ऑफिस नं. 1, प्रथम तर न्हालक्ष्मी मेट्रो टावर, प्लॉट नं. सी–7, सेक्टर–4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201010 में प्राधिकृत अधिकारी अथवा 🛮 **कॉर्पोरेट कार्यालयः** प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार, फेज–IV, गुड़गाँव, हरियाण में सम्पर्क करें। **स्थान:** दिल्ली, **तिथि:** 22.8.2022 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनांस लि. के लि

मांग—सूचना

वित्तीय परिसम्पित्तयों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3(1) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत । उक्त नियमों के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) के अधिकृत अधिकारी ने उधारकर्ता (ओं को, उन्हें जारी संबंधित मांग नोटिस (नों) में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, ऋणी को नोटिस दिया जाता है कि इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर नीचे दी गई राशि. साथ में डिमांड नोटिस की तारीख (तारीखों) से भगतान की तिथि तक भविष्यगत ब्याज का भगतान करें। ऋण

	ातान का तिथि तक मावष्यगत ब्याज का मुगतान कर। ऋण शि के पुनर्भगतान के लिए दी गई प्रतिभृति - निम्नानुसार है:	
ऋणी(ओं) /गारंटर (ओं) का नाम		प्रतिभूति संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
		संपत्ति का वह सब टुकड़ा और अंश : प्लॉट नं. एल –22 82.33 वर्ग गज का क्षेत्र, योजना कल्याण शहर, ग्राम रामसिंहपुरा—रामपुरा, सांगानेर, जयपुर, 302029, राजस्थान, भारत।
श्री परितोष करजी, श्री जगदीश बर्मन, श्रीमती सीमा बर्मन, श्रीमती सुमिता बर्मन (संभावना संख्या 865342)	रु.22,21,510—(बाईस लाख इक्कीस	संपत्ति का वह सब टुकड़ा और अंश : प्लॉट नं. ई—17, कुल क्षेत्रफल 43.90 वर्ग मीटर ,श्री कृष्णवान, ग्राम बोज्यवास, सांगानेर जयपुर, 302020, राजस्थान, भारत
यदि उक्त उधारकर्ता आईआईएफएल ए	चएफएल को भूगतान करने में विफल र	हते हैं,तो आईआईएफएल एचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4)

और लागू नियमों के तहत, पूरी तरह से उधारकर्ताओं के जोखिम, लागत और परिणामों पर, उपरोक्त प्रतिभूति संपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही हेतु आगे बढ़ सकते हैं।अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा कार्यालय में अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें: आईआईएफएल एचएफएल एमबिशन टॉवर, प्लॉट नंबर डी—46—बी, ऑफिस नंबर 307 से 312, मालन का चौराहा, अग्रसेन सर्कल, सुभाष मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर—302001ध्या कॉर्पोरेट हस्ता— अधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

# Ambuja Cement

### AMBUJA CEMENTS LIMITED

CIN: L26942GJ1981PLC004717

Regd. Office: P. O. Ambujanagar, Taluka: Khodinar, District: Gir Somnath, Gujarat-362 715

Corporate Office: Elegant Business Park, MIDC Cross Road "B", Off Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059 Tel No.: 022-4066 7000 • Website: www.ambujacement.com • E-mail: investors.relation@ambujacement.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Ambuja Cements Limited ("Target Company") under Regulation 26(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations") on the Open Offer (as

1.	Date	August 19, 2022	
0)	1777 1999 1797 Select 7,000 Se	1874   USA	
2.	Name of the Target Company (TC)	Ambuja Cements Limited	
3.	Details of the Offer pertaining to the TC	Open offer for the acquisition of up to 51,63,52,655 (Fifty One Crore Sixty Three Lakh Fifty Two Thousand Six Hundred and Fifty Five) fully paid-up equity shares of the Target Company having a face value of INR 2 (Indian Rupees Two Only) each ("Equity Shares") representing 26% of the total voting equity share capital of the Target Company on a fully diluted basis (as of the 10th working day from the closure of the tendering period of the Open Offer) of the Target Company (including outstanding warrants and rights shares kept in abeyance exercisable into 1,86,690 and 1,39,830 Equity Shares) at a price of Rs. 385 (Indian Rupees Three Hundred and Eighty Five only) per Equity Share ("Offer Price") from the public shareholders of the Target Company ("Open Offer").  The public announcement dated May 15, 2022 ("PA"), the detailed public statement published on May 23, 2022 ("DPS"), the draft letter of offer dated May 25, 2022 ("DLOF") and the letter of offer dated August 19, 2022 ("LOF") have been jointly issued by ICICI Securities Limited and Deutsche Equities India Private Limited on behalf of the Acquirer.	
4.	Name(s) of the Acquirer and PAC with the Acquirer	Acquirer: Endeavour Trade and Investment Limited There are no persons acting in concert with the Acquirer for the purposes of the Open Offer.	
5.	Name of the Manager to the Open Offer	ICICI Securities Limited and Deutsche Equities India Private Limited are the joint managers to the Open Offer.  ICICI Securities Limited, ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025, Maharashtra, India   Contact person: Sameer Purohit/Gaurav Mittal  Tel.: +91 22 6807 7100, Fax: +91 22 6807 7801, E-mail: acl.openoffer@icicisecurities.com, Website: www.icicisecurities.com, SEBI registration no.: INM000011179  Deutsche Equities India Private Limited, 14th Floor, The Capital, C-70, G Block, Bandra Kurla Complex Mumbai, Maharashtra – 400051   Contact person: Soumyajit Sengupta/ Prathmesh Sonawane, Tel.: +91 22 6670 5008, Fax: +91 22 7180 4199, E-mail: ambuja.openoffer@db.com, Website: www.deutschebank.co.in, SEBI registration no.: INM000010833	
6.	Members of the Committee of Independent Directors (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	a. Mr. Nasser Munjee (Chairperson) b. Mr. Rajendra Chitale (Member) c. Mr. Shailesh Haribhakti (Member) d. Mr. Omkar Goswami (Member) e. Ms. Shikha Sanjaya Sharma (Member)	
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	Each of the members of the IDC are independent directors on the board of directors of the Target Company.  a. Mr. Rajendra Chitale, Independent Director and a member of the IDC holds 4945 equity shares of the Target Company.  b. None of the other members of the IDC hold any equity shares or other securities of the Target Company;  c. None of the members of the IDC have any other contracts or relationship with the Target Company.	
8.	Trading in the equity shares/ other securities of the TC by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in any of the equity shares/securities of the Target Company during the: (a) 12 months period preceding the date of the PA; and (b) period from the date of the PA till the date of this recommendation.	
9.	IDC Member's relationship with the Acquirer (Director, equity shares, owned, any other contract/ relationship), if any	None of the members of the IDC:  a. are directors on the board of the Acquirer;  b. hold any equity shares or other securities of the Acquirer; or  c. have any contracts/ relationship with the Acquirer.	
10.	Trading in the equity shares / other securities of the Acquirer by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in any of the equity shares/securities of the Acquirer.	
11.	Recommendation on the Open Offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The IDC has reviewed the PA, the DPS, and the LOF.  Edelweiss Financial Services Limited, SEBI registered, Category I Merchant Banker, appointed by the IDC to provide its independent opinion with respect to the Offer Price, has: (i) opined that the Offer Price offered by the Acquirer (being the highest price prescribed) is in accordance with the Regulation 8(2) of the SEBI SAST Regulations and (ii) provided its opinion on the fair price per equity share of the Target Company, and opined that the Offer Price is fair and reasonable.	

the Target Company, and opined that the Offer Price is fair and reasonable. Based on the above, the IDC is of the opinion that, as on the date of this recommendation, the Offer Price of Rs. 385 (Indian Rupees) Three Hundred and Eighty Five only) per Equity Share offered by the Acquirer is: (a) in accordance with the regulation prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and (b) the Open Offer appears to be fair and reasonable.

However, IDC would like to draw attention of the shareholders that post the Public Announcement dated May 15, 2022, the share price of the Company has increased, and the current share price is higher than the Offer Price. The shareholders are advised to independently evaluate the open offer and take an informed decision, whether or not to tender their equity shares in the open offer.

The IDC has reviewed the PA, the DPS, and the LOF.

Edelweiss Financial Services Limited, SEBI registered, Category I Merchant Banker, appointed by the IDC to provide its independent opinion, has confirmed that Offer Price of Rs. 385 (Indian Rupees Three Hundred and Eighty Five only) per Equity Share is in accordance with the Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations.

Edelweiss Financial Services Limited have also provided its opinion on the fair price per equity share of the Target Company to the IDC at its meeting held on August 19, 2022 and opined that the Offer Price of Rs. 385 (Indian Rupees Three Hundred and Eighty Five only) per Equity Share is fair and reasonable. Based on the above, IDC is of the opinion that the Offer Price of Rs. 385 (Indian Rupees Three Hundred and Eighty Five only) per Equity

Share is in compliance with the SEBI (SAST) Regulations and the Open Offer appears to be fair and reasonable. However, IDC would like to draw attention of the shareholders that post the Public Announcement dated May 15, 2022, the share price

of the Company has increased, and the current share price is higher than the Offer Price.

The shareholders are advised to independently evaluate the open offer and take an informed decision, whether or not to tender their equity shares in the open offer.

Statement of recommendation will be available on the website of the Target Company at https://www.ambujacement.com/investors 13. Disclosure of voting pattern of the The recommendations were unanimously approved by the members of the IDC present at the meeting held on August 19, 2022

Edelweiss Financial Services Limited, SEBI registered, Category I Merchant Banker, was appointed by the IDC to provide its Details of Independent Advisors, independent opinion with respect to the Offer Price.

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of Ambuja Cements Limited

Mr. Nasser Munjee DIN: 00010180

Place: Goa Date: August 19, 2022

(SAST) Regulations.

12. Summary of reasons for recommendations

shareholder)

(IDC may also invite attention to any other place, e.g. company's

website, where its detailed

recommendations along with

written advice of the independent

adviser, if any can be seen by the

Any other matter to be highlighted

Chairperson, Committee of Independent Directors

www.readwhere.com